

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15—नवम्बर 21, 2014 (कार्तिक 24, 1936)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15—NOVEMBER 21, 2014 (KARTIKA 24, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 2014

सेना शाखा

सं 254, दिनांक 28 अक्टूबर 2014----राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै० बनाया जाता है

भूपेन्द्र सिंह मान	(टीए-42885)	(इन्फैन्ट्री)	14 अगस्त 2013
संजीव कुमार गुप्ता	(टीए- 42903)	(इन्जीनियर टीए)	06 दिसम्बर 2013
हिमांशु जोशी	(टीए- 42906)	(इन्जीनियर टीए)	06 फरवरी 2014
विनायक बेहेरा	(टीए- 42910)	(इन्जीनियर टीए)	20 फरवरी 2014

दिनेश कुमार	(टीए- 42911)	(इन्जीनियर टीए)	24 फरवरी 2014
अमीत स्वामी	(टीए- 42914)	(इन्जीनियर टीए)	06 मार्च 2014

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

पिछली तिथि से वरीयता

एस एस-40098 एफ पूर्व कैप्टन सिद्धार्थ जेदली अब टी ए-42764 लैफ्टीनेन्ट सिद्धार्थ जेदली को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 28 अप्रैल 2010 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है । नियमित सेना की 05 साल (दिनांक 08 मार्च 2003 से 07 मार्च 2008) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 28 अप्रैल 2005 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है । पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें दिनांक 28 अप्रैल 2009 से कैप्टन तथा 28 अप्रैल 2013 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया है । उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25(ए) तथा 38(ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 18(1)2006/डी (जी एस-1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवम् पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 28 अप्रैल 2010 से कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है ।

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 255, दिनांक 28 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 तथा 7 विशेष 66 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

1. निम्नलिखित डब्ल्यू एस इ एस {ओ} अधिकारियों के उनके 06 सितम्बर 2013 से डब्ल्यू एस इ एस {ओ} कमीशन छोड़ने पर मेजर के रैंक में 06 सितम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्रम सं०	डब्ल्यू एस सं०	आईसी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	डब्ल्यू एस 00809एन	आईसी 66030एक्स	सीमा त्रिपाठी	ए इ सी
(ख)	डब्ल्यू एस 00824एच	आईसी 66031ए	सुरभि रावल	ए इ सी
(ग)	डब्ल्यू एस 00841एच	आईसी 66033एल	गोडबोले सारिका सत्येंद्र	ए इ सी

2. उपरोक्त अधिकारी की स्थायी कमीशन में निम्नलिखित तारीख होगी :-

- (क) वेतन वृद्धि के लिये -06 सितम्बर 2003
(ख) पदोन्नति के लिये -06 मार्च 2004

3. उपरोक्त डब्ल्यू एस इ एस {ओ} कमीशन अधिकारी तथा उनके परस्पर कमीशन प्राप्त अधिकारियों जिन्हें समान तिथि तथा समान तिथि तथा समान वरिष्ठता के साथ स्थाई कमीशन प्रदान करता है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो डब्ल्यू एस इ एस {ओ}/एस एस सी ओ कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है ।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उसके 06 सितम्बर 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 06 सितम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्रम संख्या	एस एस सं०	आईसी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 40332एम	आईसी 65948एल	अतुल मेहता	इंफैं

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

- (क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख -06 सितम्बर 2003
(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -06 मई 2005

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है ।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 06 सितम्बर 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर रैंक में 06 सितम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	एस एस स0	आईसी स0 आबंटित	नाम	आर्म / सर्विस
i.	एसएस 40279एम	आईसी 65911के	अमित कवर	इन्फेन्ट्री
ii.	एसएस 40281के	आईसी 65913पी	ब्रह्माचारिमयूम हिरेन्द्र शर्मा	इन्फेन्ट्री
iii.	एसएस 40284एक्स	आईसी 65915ए	अशोक भण्डारी	इन्फेन्ट्री
iv.	एसएस 40303एक्स	आईसी 65927पी	सूरेन्द्र सिंह मेहता	आर्टी
v.	एसएस 40304ए	आईसी 65928एक्स	राजीव तोमर	आर्टी
vi.	एसएस 40311डब्ल्यू	आईसी 65934एल	कमल रावत	इन्फेन्ट्री
vii.	एसएस 40313एफ	आईसी 65936डब्ल्यू	कुँवर सिंह नेगी	इन्फेन्ट्री
viii.	एसएस 40320एक्स	आईसी 65941एफ	अमिताभडागर	ए एस सी
ix.	एसएस 40323एल	आईसी 65942के	दिनेश प्रकाश कादियाँ	इन्फेन्ट्री
x.	एसएस 40342डब्ल्यू	आईसी 65954वाई	तरुण कवर	ए एस सी
xi.	एसएस 40365एक्स	आईसी 65966एन	प्रताप कुमार	इन्फेन्ट्री
xii.	एसएस 40372एन	आईसी 65971वाई	अभ्यंकर रोहित सुरेश	इन्जीनियर
xiii.	एसएस 40378पी	आईसी 65973के	सलीम खान	इन्फेन्ट्री
xiv.	एसएस 40393के	आईसी 65981एच	डी पवन राव	आर्टी
xv.	एसएस 40401एक्स	आईसी 65986एफ	जी पी केशव	इन्फेन्ट्री
xvi.	एसएस 40406डब्ल्यू	आईसी 65989पी	कुमार सौरभ	आर्टी
xvii.	एसएस 40412के	आईसी 65990के	अर्शप्रीत सिंह	मैक
xviii.	एसएस 40420एच	आईसी 65995एच	अभिनव	ए एस सी
xix.	एसएस 40423डब्ल्यू	आईसी 65998डब्ल्यू	भूपेश पठानीया	इ एम इ
xx.	एसएस 40426के	आईसी 65999वाई	रत्नेश कुमार	ए ए डी
xxi.	एसएस 40443के	आईसी 66006एफ	वीरेश प्रताप सिंह	मैक
xxii.	एसएस 40447ए	आईसी 66007के	समीर दहिबेलकर	आर्टी
xxiii.	एसएस 40459पी	आईसी 66012पी	येशिका अवोमी	इन्फेन्ट्री

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

(क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख -06 सितम्बर 2003

(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -06 मई 2004

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दस वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 09 मई 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 09 मई 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	एस एस स0	आईसी स0 आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 41528एम	आईसी 66688एक्स	सन्तोष कुमार भरमौरिया	इन्फेन्ट्री
(ख)	एसएस 41581एक्स	आईसी 66689ए	रंजीत सिंह	ए सी
(ग)	एसएस 41705एफ	आईसी 66690पी	चन्दन खरयाल	आर्टी
(घ)	एसएस 41718वाई	आईसी 66691एक्स	अद्वित पटनायक	इन्फेन्ट्री

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

- (क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख — 17 सितम्बर 2005
(ख) पदोन्नति के लिये तारीख — 17 अप्रैल 2007

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 22 मार्च 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 22 मार्च 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	एस एस स0	आईसी स0 आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एस एस-42879एन	आईसी-73504डब्ल्यू	रिन्टोमोन थचील	इंफैं
(ख)	एस एस-42917वाई	आईसी-73538के	अभिनव बाजपेयी	इंफैं
(ग)	एस एस-42930एच	आईसी-73547एल	आशिष सभाजीत उपाध्याय	ए ओ सी
(घ)	एस एस-43006पी	आईसी-73605के	आशीष शाही	इंफैं

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

- (क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख — 22 मार्च 2008
(ख) पदोन्नति के लिये तारीख — 22 अक्टूबर 2008

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 20 सितम्बर 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 20 सितम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	एस एस स0	आई सी स0 आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 43195के	आईसी 73647डब्ल्यू	मोरे भारतभूषण रामचंद्र	इंजीनियर

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

- (क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख — 20 सितम्बर 2008
(ख) पदोन्नति के लिये तारीख — 20 अप्रैल 2009

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 20 सितम्बर 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 20 सितम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	एस एस स0	आई सी स0 आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 43190एल	आईसी 73643ए	अनिल नेहरा	आर्टी
(ख)	एसएस 43193वाई	आईसी 73645एल	दिग्विजय सिंह चौहान	इन्जीनियर
(ग)	एसएस 43196एम	आईसी 73648वाई	राकेश कुमार कंडारी	आर्टी

क्र. सं.	एस एस स0	आई सी स0 आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(घ)	एसएस 43201एम	आईसी 73652एफ	नरेन्द्र सिंह	ए ए डी
(ड)	एसएस 43223एल	आईसी 73670के	जगबीर सिंह बिदावत	आर्टी
(च)	एसएस 43226वाई	आईसी 73673एक्स	जगजीत सिंह	इन्फेन्ट्री
(झ)	एसएस 43287डब्ल्यू	आईसी 73724ए	सत्येन्द्र	इन्जीनियर

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

- (क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख — 20 सितम्बर 2008
 (ख) पदोन्नति के लिये तारीख — 20 अप्रैल 2009

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 20 सितम्बर 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 20 सितम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	एस एस स0	आई सी स0 आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 43222एच	आईसी 73669पी	अग्नीश घोष	इन्फै
(ख)	एसएस 43248एक्स	आईसी 73692एच	करन बेन्स	आर्टी

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

- (क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख — 20 सितम्बर 2008
 (ख) पदोन्नति के लिये तारीख — 20 अप्रैल 2009

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 20 सितम्बर 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 20 सितम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	एस एस स0	आई सी स0 आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
I.	एसएस 43186एच	आईसी 73639एक्स	अरविंदर सिंह सी	मैक
II.	एसएस 43194एफ	आईसी 73646एन	भूपेश कुमार	आर्टी
III.	एसएस 43199ए	आईसी 73650डब्ल्यू	प्रशान्त जानकर	आर्टी
IV.	एसएस 43200के	आईसी 73651वाई	देसाई आदित्य शतीस	इन्जीनियर
V.	एसएस 43202पी	आईसी 73653के	वरुण कुमार सिंह	इन्फेन्ट्री
VI.	एसएस 43205एच	आईसी 73655पी	ऋतुराज अहलावत	इन्फेन्ट्री
VII.	एसएस 43209वाई	आईसी 73658एच	चन्द्रशेखर गिरि	आर्टी
VIII.	एसएस 43211डब्ल्यू	आईसी 73660ए	कुमार सुमंत	आर्टी
IX.	एसएस 43214के	आईसी 73663एन	ग्रीवर इंद्रजीत सिंह सूरजीत सिंह	इन्फेन्ट्री
X.	एसएस 43215एम	आईसी 73664डब्ल्यू	आशुतोष श्रीवास्तव	आर्टी
XI.	एसएस 43217एक्स	आईसी 73665वाई	विजेन्द्र कुमार	ए ए डी
XII.	एसएस 43219एच	आईसी 73666एफ	राजीव शर्मा	ए सी
XIII.	एसएस 43220एक्स	आईसी 73667के	रिशिव स्लाथिया	आर्टी
XIV.	एसएस 43221ए	आईसी 73668एम	लुनकिम पाओलेन्यागें खोंगसाई	इन्फेन्ट्री

क्र. सं.	एस एस स0	आई सी स0 आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
XV.	एसएस 43228के	आईसी 73674ए	शशि कुमार	इन्फेन्ट्री
XVI.	एसएस 43229एम	आईसी 73675एच	आदित्य शर्मा	ए ए डी
XVII.	एसएस 43230एफ	आईसी 73676एल	काशी त्रिनाथ नेट्टि	ए सी
XVIII.	एसएस 43231के	आईसी 73677एन	अभितोष	आर्टी
XIX.	एसएस 43232एम	आईसी 73678डब्ल्यू	कृष्ण कुमार	ए सी
XX.	एसएस 43234एक्स	आईसी 73680एन	विवेक यादव	मैक
XXI.	एसएस 43235ए	आईसी 73681डब्ल्यू	एम सन्तोष	आर्टी
XXII.	एसएस 43236एच	आईसी 73682वाई	वी वेंकट राघावन	आर्टी
XXIII.	एसएस 43237एल	आईसी 73683एफ	टैलिनवीर सिंह ढिल्लो	इन्फेन्ट्री
XXIV.	एसएस 43239डब्ल्यू	आईसी 73685एम	राहुल सिंह बघेल	ए सी
XXV.	एसएस 43240एल	आईसी 73686 पी	आशीष सिद्धावत	इ एम इ
XXVI.	एसएस 43242डब्ल्यू	आईसी 73688ए	राजन कुमार	इन्फेन्ट्री
XXVII.	एसएस 43245के	आईसी 73689एच	पुष्पेन्द्र प्रताप भट्ट	आर्टी
XXVIII.	एसएस 43246एम	आईसी 73690एक्स	एस किरण	इ एम इ
XXIX.	एसएस 43249ए	आईसी 73693एल	पीयूष कुमार त्रिपाठी	आर्टी
XXX.	एसएस 43250पी	आईसी 73694एन	विजेन्द्र एस यादव	ए सी
XXXI.	एसएस 43254एल	आईसी 73697एफ	सुनिल कुमार टाडी	आर्टी
XXXII.	एसएस 43255एन	आईसी 73698के	लौरम्बम बीस्वाप्रम मैतै	आर्टी
XXXIII.	एसएस 43256डब्ल्यू	आईसी 73699एम	संजेश कुमार भवनानी	मैक
XXXIV.	एसएस 43257वाई	आईसी 73700डब्ल्यू	गोमित दुबे	इन्फेन्ट्री
XXXV.	एसएस 43259 के	आईसी 73702एफ	रवि प्रताप सिंह	इ एम इ
XXXVI.	एसएस 43262के	आईसी 73704एम	आलोक सिंह	ए सी
XXXVII.	एसएस 43265एक्स	आईसी 73705पी	महेश कुमार जाखड	आर्टी
XXXVIII.	एसएस 43266ए	आईसी 73706एक्स	परीक्षित पंवार	इन्फेन्ट्री
XXXIX.	एसएस 43273डब्ल्यू	आईसी 73710ए	विनीत छिल्लर	आर्टी
XL.	एसएस 43275एफ	आईसी 73712एल	के कार्तिक	आर्टी
XLI.	एसएस 43276के	आईसी 73713एन	जावेद हुसैन	आर्टी
XLII.	एसएस 43277एम	आईसी 73714डब्ल्यू	सांनतु हरडे	इन्फेन्ट्री
XLIII.	एसएस 43278पी	आईसी 73715वाई	के एच सेम	इन्फेन्ट्री
XLIV.	एसएस 43280एम	आईसी 73717के	अवतार सिंह	ए ए डी
XLV.	एसएस 43281पी	आईसी 73718एम	नामैराकपम दीपक सिंह	इन्फेन्ट्री
XLVI.	एसएस 43282एक्स	आईसी 73719पी	रविन्द्र सिंह सैनी	इन्फेन्ट्री
XLVII.	एसएस 43283ए	आईसी 73720के	गुरप्रीत सिंह सोखी	आर्टी
XLVIII.	एसएस 43284एच	आईसी 73721एम	अजय सिंह	आर्टी
XLIX.	एसएस 43285एल	आईसी 73722पी	चंदन सिंह	आर्टी
L.	एसएस 43286एन	आईसी 73723एक्स	दीपक कनवासी	ए सी

क्र. सं.	एस एस स0	आई सी स0 आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
LI.	एसएस 43290डब्ल्यू	आईसी 73726एल	अजये लोचब	इन्फेन्ट्री
LII.	एसएस 43292एफ	आईसी 73727एन	चव्हाण निखील अरविंद	ए ए डी
LIII.	एसएस 43293के	आईसी 73728डब्ल्यू	गोखले केतन दिलीप	इन्फेन्ट्री
LIV.	एसएस 43295पी	आईसी 73729वाई	रजनीश प्रताप सिंह	इन्फेन्ट्री
LV.	एसएस 43298एच	आईसी 73731डब्ल्यू	विवेक सिंह	आर्टी
LVI.	एसएस 43299एल	आईसी 73732वाई	अमित शर्मा	आर्टी
LVII.	एसएस 43301एक्स	आईसी 73734के	अरनब घोषाल	ए सी
LVIII.	एसएस 43303एच	आईसी 73736पी	शशांक गौड़	आर्टी
LIX.	एसएस 43304एल	आईसी 73737एक्स	कार्तिक सैनी	इन्फेन्ट्री
LX.	एसएस 43305एन	आईसी 73738ए	शक्ति सिंह	इन्फेन्ट्री
LXI.	एसएस 43306डब्ल्यू	आईसी 73739एच	विशाल तिवारी	इन्फेन्ट्री
LXII.	एसएस 43307वाई	आईसी 73740एक्स	विनोद कुमार पाण्डेय	आर्टी
LXIII.	एसएस 43309के	आईसी 73741ए	दुष्यंत बिशनोई	इन्फेन्ट्री
LXIV.	एसएस 43311एफ	आईसी 73743एल	इरफान अहमद खान	ए ए डी
LXV.	एसएस 43312के	आईसी 73744एन	कंचन कुमार	इन्फेन्ट्री
LXVI.	एसएस 43317एच	आईसी 73748के	शिवा सैहगल	आर्टी
LXVII.	एसएस 43320एच	आईसी 73751के	गौतम सिंह	इन्फेन्ट्री
LXVIII.	एसएस 43322एन	आईसी 73753पी	भारतेन्दु गौतम	आर्टी
LXIX.	एसएस 43323डब्ल्यू	आईसी 73754एक्स	विरेन्द्र सिंह चन्देल	इन्फेन्ट्री

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

- (क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख — 20 सितम्बर 2008
 (ख) पदोन्नति के लिये तारीख — 20 अप्रैल 2009

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 09 मई 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 09 मई 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	एस एस स0	आईसी स0 आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 41506एन	आईसी 66535एन	गुरविन्दर सिंह भट्टी	इन्जीनियर

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

- (क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख — 17 अक्टूबर 2003
 (ख) पदोन्नति के लिये तारीख — 17 अक्टूबर 2004

(इस बैच के अधिकारियों को जिन्हें 8 वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया था उनकी तुलना में 12 महीने वरिष्ठता कम करने के बाद)

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

जितेन्द्र ओहरी
 कर्नल
 कर्नल सेना सचिव 7

सेना शाखा

सं. 256, दिनांक 29 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै0 कर्नल बनाया जाता है

मेजर तेजपाल सिंह बाजवा

(टीए-42605)

(इन्फैन्ट्री)

20 जून 2014

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन पंकज जी मुले	टीए-42471	(इन्जीनियर टीए)	01 जून 2008
कैप्टन राजेश तिवारी	टीए-42644	(इन्जीनियर टीए)	12 सितम्बर 2013
कैप्टन विनित कुमार चढ्ढा	टीए-42646	(इन्जीनियर टीए)	12 सितम्बर 2013
कैप्टन प्रशान्त कुमार सिंह	टीए-42660	(इन्जीनियर टीए)	17 अप्रैल 2014

कैप्टन बनाया जाता है

लै0 क्षत्रपाल चौहान

(टीए-42768)

(इन्फैन्ट्री)

08 मई 2014

लै0 प्रशांत

(टीए-42769)

(इन्फैन्ट्री)

18 मई 2014

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 257, तारीख 29 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:-

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सूबेदार मेजर रैंक में

सूबेदार	देवेन्द्र सिंह	जे सी 803178एच	@03 मार्च 2014
@सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।			

सूबेदार रैंक में

नायब सूबेदार	शिव प्रसाद स्वर्णकार	जे सी 804041एच	# 19 अक्टूबर 2013
# सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी।			
नायब सूबेदार	महिन्द्र सिंह	जे सी 804058डब्ल्यू	@27 मार्च 2014
नायब सूबेदार	त्रिभुवन नारायण सिंह	जे सी 804081के	*09 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	बिक्रम सिंह रावत	जे सी 804092डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2013
@सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
*सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
नायब सूबेदार	वेनूगोपाल एन	जे सी 804107एन	@ 13 जनवरी 2014
@ सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।			
नायब सूबेदार	सय्यद बाबासाहेब गणी	जे सी 804128के	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	राजीव कुमार बी	जे सी 804133पी	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	पी बाबू विजय कुमार	जे सी 804135ए	01 मार्च 2014

नायब सूबेदार	उम्मेद सिंह	जे सी 804136एच	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	सुमोहन नायक	जे सी 804137एल	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	प्रवीण चन्द्र ओझा	जे सी 804138एन	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	जगदीश तिवारी	जे सी 804139डब्ल्यू	@03 मार्च 2014
नायब सूबेदार	विजय कुमार गुप्ता	जे सी 804141एन	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	गणेश दत्त शर्मा	जे सी 804142डब्ल्यू	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	राजेन्द्र कुमार	जे सी 804143वाई	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	विजय सिंह	जे सी 804144एफ	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार / लिपिक	मृत्युंजय दास	जे सी 804465वाई	01 मार्च 2014
@ सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च से दी जायेगी ।			
नायब सूबेदार	श्याम किशोर	जे सी 804145के	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	ओम प्रकाश सिंह यादव	जे सी 804146एम	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	जय भगवान	जे सी 804147पी	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	राधा कृष्णन नायर वी	जे सी 804152ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	अनिल कुमार	जे सी 804154एल	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार / लिपिक	गौतम साहा	जे सी 804482वाई	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	देवेन्द्र सिंह	जे सी 804155एन	#05 मई 2014
नायब सूबेदार	दिनेश सिंह	जे सी 804156डब्ल्यू	01 मई 2014
नायब सूबेदार	भुवन चन्द्र भट्ट	जे सी 804157वाई	01 मई 2014
नायब सूबेदार / लिपिक	पी सरवणन	जे सी 804484के	01 मई 2014
# सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी ।			
नायब सूबेदार	धर्वेन्द्र सिंह	जे सी 804158एफ	\$21 जून 2014
नायब सूबेदार	बाबू राम	जे सी 804159के	\$04 जून 2014
नायब सूबेदार	कल्याण सिंह	जे सी 804160वाई	\$23 जून 2014
नायब सूबेदार	गजपाल सिंह रावत	जे सी 804164पी	\$23 जून 2014
नायब सूबेदार	प्रकाश चन्द	जे सी 804166ए	\$14 जून 2014
नायब सूबेदार	राकेश कुमार ठाकुर	जे सी 804167एच	\$23 जून 2014
नायब सूबेदार	सुरेश चन्द्र	जे सी 804170एच	\$17 जून 2014
नायब सूबेदार	ललन किशोर ठाकुर	जे सी 804171एल	\$20 जून 2014
नायब सूबेदार	गुलाब सिंह	जे सी 804172एन	\$25 जून 2014
नायब सूबेदार	जगदीश चंद	जे सी 804173डब्ल्यू	\$03 जून 2014

नायब सूबेदार	प्रफुल्ल कुमार जेना	जे सी 804175एफ	\$07 जून 2014
नायब सूबेदार	चवन अशोक चन्द्रकान्त	जे सी 804178पी	\$27 जून 2014
नायब सूबेदार	प्रमोद कुमार	जे सी 804300ए	\$05 जून 2014
नायब सूबेदार	राजेन्द्रन सी	जे सी 804181पी	\$19 जून 2014
नायब सूबेदार	धन सिंह	जे सी 804182एक्स	\$12 जून 2014
नायब सूबेदार	खिरोद चंद्र जेना	जे सी 804184एच	\$14 जून 2014
नायब सूबेदार	अत्तर सिंह	जे सी 804186एन	\$05 जून 2014
नायब सूबेदार	दिलीप कुमार मैती	जे सी 804192एफ	\$05 जून 2014
नायब सूबेदार	राजबीर	जे सी 804193के	\$06 जून 2014
नायब सूबेदार	परमेश्वर स्वाई	जे सी 804194एम	\$07 जून 2014
नायब सूबेदार	रनोत कुलदीप कुमार आत्माराम	जे सी 804195पी	\$07 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	गुलाब सिंह	जे सी 804198एच	\$09 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	रबिन्द्र कुमार चौधरी	जे सी 804199एल	\$09 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	मोहन कुमार दास	जे सी 804201एक्स	\$07 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	कुन्जु कृष्ण पिल्लै आर	जे सी 804206डब्ल्यू	\$17 जून 2014
नायब सूबेदार	नवीन कुमार	जे सी 804207वाई	\$17 जून 2014
नायब सूबेदार	रवीन्द्र सिंह	जे सी 804208एफ	\$25 जून 2014
\$ सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी ।			
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार भौमिक	जे सी 804211एफ	*07 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	जे सी 804218एल	*07 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	अनिन्द्य चक्रवर्ती	जे सी 804219एन	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	देवेन्द्र कुमार पान्डेय	जे सी 804222एन	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	उमेश कुमार	जे सी 804225एफ	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	श्री भगवान	जे सी 804226के	01 जुलाई 2014
\$ सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी ।			

नायब सूबेदार रैंक में

हवलदार	प्रेम कुमार आर	(सेनांक 9511877एक्स अब जे सी 804881एच)	@10 फरवरी 2014
@नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2013 से दी जाएगी ।			
हवलदार	कमलेश कुमार शर्मा	(सेनांक 9512030ए अब जे सी 804902एन)	01 फरवरी 2014
हवलदार/लिपिक	रघु टी	(सेनांक 9510984एम अब जे सी 804910एम)	01 मार्च 2014
हवलदार	राजेन्द्रन ई आर	(सेनांक 9512055एम अब जे सी 804911पी)	01 मार्च 2014
हवलदार	प्यारे लाल	(सेनांक 9512056पी अब जे सी 804912एक्स)	01 मार्च 2014
हवलदार	सुरेश इ	(सेनांक 9512064एन अब जे सी 804913ए)	01 मार्च 2014
हवलदार	नरेन्द्र सिंह	(सेनांक 9512072एम अब जे सी 804914एच)	01 मार्च 2014

हवलदार	कृष्ण कान्त अवस्थी	(सेनांक 9512073पी अब जे सी 804915एल)	01 मार्च 2014
हवलदार	अभय कुमार रथ	(सेनांक 9512076एच अब जे सी 804916एन)	01 मार्च 2014
हवलदार	देवेन्द्र सिंह	(सेनांक 9512081एन अब जे सी 804917डब्ल्यू)	01 मार्च 2014
हवलदार	मनोज कुमार ठाकुर	(सेनांक 9512084एफ अब जे सी 804918वाई)	01 मार्च 2014
हवलदार	जगमाल सिंह कुशवाहा	(सेनांक 9512085के अब जे सी 804919एफ)	01 मार्च 2014
हवलदार	सुदिन चौधरी	(सेनांक 9512089ए अब जे सी 804920डब्ल्यू)	@25 मार्च 2014
हवलदार	मनोज कुमार सिंह	(सेनांक 9512091एक्स अब जे सी 804921वाई)	01 मार्च 2014
हवलदार	मोहन चरण स्वाई	(सेनांक 9511943पी अब जे सी 804922एफ)	#01 अप्रैल 2014
हवलदार	अनिल कुमार शुक्ला	(सेनांक 9511952डब्ल्यू अब जे सी 804923के)	#01 अप्रैल 2014
@नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाएगी।			
# नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मार्च 2014 से दी जाएगी।			
हवलदार/लिपिक	अभिजित मोईति	(सेनांक 4270445एम अब जे सी 804924एम)	01 अप्रैल 2014
हवलदार/लिपिक	बद्री दत्त काण्डपाल	(सेनांक 9510982एफ अब जे सी 804925पी)	01 अप्रैल 2014
हवलदार	बलजिंदर सिंह	(सेनांक 9512093एच अब जे सी 804926एक्स)	01 अप्रैल 2014
हवलदार	विनोद कुमार	(सेनांक 9512095एन अब जे सी 804927ए)	01 अप्रैल 2014
हवलदार	यशपाल कटोच	(सेनांक 9512097वाई अब जे सी 804928एच)	01 अप्रैल 2014
हवलदार	नरेश कुमार	(सेनांक 9512100एन अब जे सी 804929एल)	01 अप्रैल 2014
हवलदार	कुलदीप सिंह	(सेनांक 9511974पी अब जे सी 804930ए)	@01 मई 2014
@नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2014 से दी जाएगी।			
हवलदार/लिपिक	कैलाश चन्द्र राउत	(सेनांक 4270551एल अब जे सी 804931एच)	01 मई 2014
हवलदार	श्री कुन्दन श्रीवास्तव	(सेनांक 9512102वाई अब जे सी 804932एल)	#02 मई 2014
हवलदार	विपन कुमार	(सेनांक 9512103एफ अब जे सी 804933एन)	01 मई 2014
हवलदार	मंजुनाथ के आर	(सेनांक 9512106पी अब जे सी 804934डब्ल्यू)	01 मई 2014
हवलदार	एम वैट्टीवेल	(सेनांक 9512113एल अब जे सी 804935वाई)	01 मई 2014
हवलदार	बिस्वानाथा मिश्रा	(सेनांक 9511525ए अब जे सी 804936एफ)	*01 मई 2014
# नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाएगी।			
* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाएगी।			
हवलदार	अशोक कुमार धीमान	(सेनांक 9512114एन अब जे सी 804937के)	\$10 जून 2014
हवलदार	अजीत कुमार सिंह	(सेनांक 9512117एफ अब जे सी 804938एम)	01 जून 2014
हवलदार	राज कुमार	(सेनांक 9512121के अब जे सी 804939पी)	01 जून 2014
हवलदार	चन्द्र भान गोस्वामी	(सेनांक 9512122एम अब जे सी 804940के)	\$05 जून 2014
हवलदार	संजीव राजपुत	(सेनांक 9512126एच अब जे सी 804941एम)	01 जून 2014
हवलदार	करुणा निधान तिवारी	(सेनांक 9512131एन अब जे सी 804942पी)	01 जून 2014

हवलदार	कुलदीप राज	(सेनांक 9512132डब्ल्यू अब जे सी 804943एक्स)	\$02 जून 2014
हवलदार	दान बहादुर मिश्र	(सेनांक 9512133वाई अब जे सी 804944ए)	\$02 जून 2014
हवलदार	रोणाल्ड वी पी आर	(सेनांक 9512135के अब जे सी 804945एच)	01 जून 2014
हवलदार	प्रमोद कुमार सिंह	(सेनांक 9512137पी अब जे सी 804946एल)	01 जून 2014
हवलदार	सन्तोष कुमार जी पि	(सेनांक 9512142ए अब जे सी 804947एन)	\$11 जून 2014
हवलदार	ओम प्रकाश पाण्डेय	(सेनांक 9512143एच अब जे सी 804948डब्ल्यू)	\$09 जून 2014
हवलदार	पुरुसोत्तम नायर सी	(सेनांक 9512145एन अब जे सी 804949वाई)	01 जून 2014
हवलदार	उदय भानु मुखर्जी	(सेनांक 9512150वाई अब जे सी 804950एन)	01 जून 2014
हवलदार	जयपाल सिंह	(सेनांक 9512151एफ अब जे सी 804951डब्ल्यू)	01 जून 2014
हवलदार	टुना साहू	(सेनांक 9512156ए अब जे सी 804952वाई)	01 जून 2014
हवलदार	चरन सिंह उपरारी	(सेनांक 9512157एच अब जे सी 804953एफ)	01 जून 2014
हवलदार	हरीश कुमार	(सेनांक 9512158एल अब जे सी 804954के)	01 जून 2014
हवलदार	श्री गोवर्धन प्रसाद मिश्र	(सेनांक 9512161एल अब जे सी 804955एम)	\$02 जून 2014
हवलदार	संजीव कुमार वांखेडे	(सेनांक 9512162एन अब जे सी 804956पी)	01 जून 2014
हवलदार	भवेश गुप्ता	(सेनांक 9512163डब्ल्यू अब जे सी 804957एक्स)	\$02 जून 2014
हवलदार	सत्य प्रकाश उपाध्याय	(सेनांक 9512174एच अब जे सी 804958ए)	\$04 जून 2014
हवलदार	तरुण कुमार सुर	(सेनांक 9512176एन अब जे सी 804959एच)	\$02 जून 2014
हवलदार	डी येसुदास	(सेनांक 9512179एफ अब जे सी 804960एक्स)	01 जून 2014
हवलदार	रिपु मर्दन कुमार	(सेनांक 9512182एफ अब जे सी 804961ए)	\$02 जून 2014
हवलदार	पूर्ण चंद्र पंडा	(सेनांक 9512184एम अब जे सी 804962एच)	01 जून 2014
हवलदार	प्रमोद चन्द्र	(सेनांक 9512187ए अब जे सी 804964एन)	01 जून 2014
हवलदार	बाबूलाल	(सेनांक 9512225एल अब जे सी 804965डब्ल्यू)	01 जून 2014
हवलदार	कृष्ण मोहन मिश्र	(सेनांक 9512228वाई अब जे सी 804966वाई)	\$06 जून 2014
हवलदार	ललितेश्वर प्रसाद सिंह	(सेनांक 9512229एफ अब जे सी 804967एफ)	01 जून 2014
हवलदार	राजेश कुमार	(सेनांक 9512232एफ अब जे सी 804968के)	\$02 जून 2014
हवलदार	चन्द्र सिंह	(सेनांक 9512233के अब जे सी 804969एम)	01 जून 2014
हवलदार	सुशील कुमार	(सेनांक 9512234एम अब जे सी 804970एफ)	\$01 जून 2014
हवलदार	टेंगडे सत्यविजय फकिरराव	(सेनांक 9512237ए अब जे सी 804971के)	\$02 जून 2014
हवलदार	सी मनिकन्दन	(सेनांक 9512238एच अब जे सी 804972एम)	\$02 जून 2014
हवलदार	अमृत प्रधान	(सेनांक 9512241एच अब जे सी 804973पी)	\$02 जून 2014

हवलदार	संतोष कुमार आर	(सेनांक 9512242एल अब जे सी 804974एक्स)	\$11 जून 2014
हवलदार	सन्तोष राय	(सेनांक 9512243एन अब जे सी 804975ए)	01 जून 2014
हवलदार	पायदी नारायण मूर्ति	(सेनांक 9512244डब्ल्यू अब जे सी 804976एच)	\$02 जून 2014
हवलदार	सुभाष चन्द	(सेनांक 9512245वाई अब जे सी 804977एल)	\$02 जून 2014
हवलदार	सावंत विजय विठल	(सेनांक 9512249पी अब जे सी 804978एन)	01 जून 2014
हवलदार	पिन्दु बसु	(सेनांक 9512250के अब जे सी 804979डब्ल्यू)	01 जून 2014
\$ नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाएगी।			
हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	(सेनांक 9512256एल अब जे सी 804981एन)	01 जुलाई 2014
हवलदार	अजयेन्द्र पाठक	(सेनांक 9512258डब्ल्यू अब जे सी 804982डब्ल्यू)	01 जुलाई 2014
हवलदार	दिलीप सिंह फाण्डन	(सेनांक 9512262वाई अब जे सी 804983वाई)	01 जुलाई 2014
हवलदार	तोडकर नवनाथ दिनकर	(सेनांक 9512272एच अब जे सी 804985के)	01 जुलाई 2014
हवलदार	राकेश कुमार	(सेनांक 9512273एल अब जे सी 804986एम)	01 जुलाई 2014
हवलदार	हेम राज	(सेनांक 9512280एफ अब जे सी 804987पी)	01 जुलाई 2014
हवलदार	निर्मल चौधरी	(सेनांक 9512281के अब जे सी 804988एक्स)	01 जुलाई 2014
हवलदार	पवन कुमार	(सेनांक 9512282एम अब जे सी 804989ए)	01 जुलाई 2014
हवलदार	शैतान सिंह	(सेनांक 9512284एक्स अब जे सी 804990पी)	01 जुलाई 2014
हवलदार	खेमराज शर्मा	(सेनांक 9512285ए अब जे सी 804991एक्स)	01 जुलाई 2014

अलका जोशी
अवर सचिव

थल सेना

सं. 258, दिनांक 30 अक्तूबर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :

नियमित सेना

तोपखाना अभिलेख

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी/एसकेटी) के पद में

सं.	रैंक	नाम	जेसी नम्बर	पदोन्नति की तिथि
01	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	मदूगुला मोहना राव	(स.14403762एच अब जेसी-280173एम)	01 जनवरी 2014 01 जनवरी 2013*
02	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	बहादुर सिंह	(स.15122814ए अब जेसी-280251वाई)	09 जनवरी 2014 01 जनवरी 2014*
03	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	विजय सिंह	(स.15124284पी अब जेसी-280252एफ)	01 जनवरी 2014
04	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	रंजीत सिंह चम्बेल	(स.15121546पी अब जेसी-280174पी)	01 जनवरी 2014
05	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	सुखदेव राज	(स.15124004डब्ल्यू अब जेसी-280066एल)	01 जनवरी 2014
06	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	अशोक कुमार यादव	(स.15123257वाई अब जेसी-280175एक्स)	01 जनवरी 2014

07	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	नारा बहादुर नेवार	(स.15121200एल अब जेसी-280176ए)	01 जनवरी 2014
08	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	चौधरी महेन्द्र नाथ काशीनाथ	(स.15124141पी अब जेसी-280491डब्ल्यू)	17 जनवरी 2014 01 जनवरी 2014*
09	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	बृन्दाबन जेना	(स.15125883एफ अब जेसी-280177एच)	09 जनवरी 2014 01 जनवरी 2014*
10	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	विरेन्द्र सिंह	(स.15125897एफ अब जेसी-280067एन)	01 जनवरी 2014
11	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	महेश कुमार	(स.15126061डब्ल्यू अब जेसी-280217वाई)	01 जनवरी 2014
12	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	सूर्यावंशी सतीश आशाराम	(स.15126580वाई अब जेसी-280068डब्ल्यू)	01 जनवरी 2014
13	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	राकेश कुमार	(स.15124500एक्स अब जेसी-280069वाई)	01 जनवरी 2014
14	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	ताम्बे बाबासाहेब बलवन्त	(स.15126587एच अब जेसी-280253के)	01 जनवरी 2014
15	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	हरि कुमार एस	(स.15124002एल अब जेसी-280894डब्ल्यू)	26 जनवरी 2014 01 जुलाई 2013*
16	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	अरावेन्द्र कुमार	(स.15126674डब्ल्यू अब जेसी-280178एल)	01 जनवरी 2014
17	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	चन्द्र भूषण प्रतिहास्ट	(स.15126972एम अब जेसी-280179एन)	01 जनवरी 2014
18	हवलदार (एसकेटी)	पवार राजेन्द्र गोविन्द	(स.15121976वाई अब जेसी-280180एच)	01 जनवरी 2014
19	हवलदार (एसकेटी)	नायक अशोक शमशेर	(स.15121980एफ अब जेसी-280181एल)	01 जनवरी 2014
20	हवलदार (एसकेटी)	पुसारला शिवनारायण	(स.15122365डब्ल्यू अब जेसी-280255पी)	15 जनवरी 2014 01 जनवरी 2014*
21	हवलदार (एसकेटी)	नागराज कुम्हार	(स.14413754एक्स अब जेसी-280182एन)	01 जनवरी 2014
22	हवलदार (एसकेटी)	इतेश कुमार	(स.14413757एल अब जेसी-280256एक्स)	01 जनवरी 2014
23	हवलदार (एसकेटी)	अरुण कुमार	(स.14413876एफ अब जेसी-280183डब्ल्यू)	01 जनवरी 2014
24	हवलदार (एसकेटी)	वेलू पीएस	(स.14413988एफ अब जेसी-280184वाई)	01 जनवरी 2014
25	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	त्रलोकी नाथ सिंह	(स.15126846ए अब जेसी-280128एफ)	13 जनवरी 2014 01 जनवरी 2014*
26	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	प्रसन्ना कुमार राउत	(स.15126751ए अब जेसी-280254एम)	13 जनवरी 2014 01 जनवरी 2014*
27	हवलदार (एसकेटी)	पंजातसरम जी	(स.14413989के अब जेसी-280257ए)	13 जनवरी 2014 01 जनवरी 2014*
28	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	रवीश कुमार	(स.15126899वाई अब जेसी-280492वाई)	04 फरवरी 2014 01 फरवरी 2014*
29	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	संजया पधान	(स.15127011एक्स अब जेसी-280493एफ)	16 फरवरी 2014 01 फरवरी 2014*
30	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	टी जया कुमार	(स.15125875एच अब जेसी-280494के)	03 फरवरी 2014 01 फरवरी 2014*
31	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	कुन्नुरे संजय दिगम्बर	(स.15128288एच अब जेसी-280550एक्स)	01 फरवरी 2014
32	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	सुरेश एस	(स.15128177एल अब जेसी-280495एम)	01 फरवरी 2014

33	हवलदार (एसकेटी)	भास्कर सीएच सामन्तरे	(स.15122742एफ अब जेसी—280551ए)	13 फरवरी 2014 01 फरवरी 2014*
34	हवलदार (एसकेटी)	संतोश कुमार बिश्वास	(स.15120795एफ अब जेसी—280496पी)	01 फरवरी 2014
35	हवलदार (एसकेटी)	निर्मल सिंह	(स.14414096एच अब जेसी—280497एक्स)	01 फरवरी 2014
36	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	विकाश कुमार झा	(स.15128201डब्ल्यू अब जेसी—280552एच)	01 मार्च 2014
37	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	अजया कुमार ए	(स.15128245एन अब जेसी—280498ए)	01 मार्च 2014
38	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	राजेश बाबू पाल	(स.15128252के अब जेसी—280765डब्ल्यू)	01 मार्च 2014
39	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	बिरजू साह	(स.15128262एन अब जेसी—280499एच)	01 मार्च 2014
40	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	श्री राम सिंह यादव	(स.15128274एच अब जेसी—280776वाई)	01 मार्च 2014
41	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	अमरेन्द्र सिंह	(स.15128276एन अब जेसी—280553एल)	01 मार्च 2014
42	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	कोचे महेन्द्र कुमार श्रावण	(स.15128355एच अब जेसी—280554एन)	01 मार्च 2014
43	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	नरिन्दर कुमार	(स.15128493के अब जेसी—280555डब्ल्यू)	01 मार्च 2014
44	हवलदार (एसकेटी)	राजेश कुमार	(स.15122850एल अब जेसी—280500एम)	01 मार्च 2014
45	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	श्री उमेश कुमार चर्तुवेदी	(स.15128179डब्ल्यू अब जेसी—280501पी)	01 मार्च 2014 01 अक्टूबर 2013*

*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

46	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	अरविन्द सरकार	(स.15124263वाई अब जेसी—280767एफ)	01 मार्च 2014
47	हवलदार (क्लर्क/एसडी)	लोकेश शर्मा	(स.15126022एक्स अब जेसी—280768के)	01 मार्च 2014

*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

दीपक नारंग
अवर सचिव

(थल सेना शाखा)

सं. 259, दिनांक 30 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मराठा लाईट इन्फेन्ट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मनोहर कृष्णा निम्बालकर (जेसी—459222ए) 05 जुलाई 2013*

*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जाती है।

सूबेदार देसले हिम्मताराव विष्णु (जेसी—459252एक्स) 01 जून 2013

सूबेदार सुरेश कुमार एस (जेसी—459134के) 01 सितम्बर 2013

सूबेदार पाटील केशव पांडुरंग (जेसी—459192एन) 02 अक्टूबर 2013*

*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जाती है।

सूबेदार सतीष चंद्र मिश्रा (जेसी—459243डब्ल्यू) 01 नवम्बर 2013

सूबेदार घाग महेंद्र गोपाल (जेसी—459174एल) 01 दिसम्बर 2013

सूबेदार	सूबे सिंह	(जेसी-458977एल)	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	मालविकर ईश्वर निंगोजी	(जेसी-459224एल)	05 दिसम्बर 2013*
*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।			
सूबेदार	करकमंडा शमीउल्ला	(जेसी-459187एच)	01 जनवरी 2014
सूबेदार	यादव श्रवन श्रिपती	(जेसी-459084के)	01 जनवरी 2014
सूबेदार	निमत अविनाश शंकर	(जेसी-459146वाई)	04 जनवरी 2014*
*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।			
सूबेदार	शहाजीराव ज्ञानेश्वर शितोळे	(जेसी-459239एन)	01 फरवरी 2014
सूबेदार	पवार शिवाजी बाळासाहेब	(जेसी-459246के)	01 फरवरी 2014
सूबेदार	भांडे अजयकुमार मारुतीराव	(जेसी-459449एन)	01 फरवरी 2014
सूबेदार	अढाव ताबाजी नारायण	(जेसी-459322एल)	03 फरवरी 2014*
*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
सूबेदार	जगताप नंदकुमार निवराती	(जेसी-459730डब्ल्यू)	01 फरवरी 2014
सूबेदार	राखडे गोपीचंद काशीनाथ	(जेसी-459154एक्स)	01 मार्च 2014
सूबेदार	हफी जुल्लाह	(जेसी-459228एफ)	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	निकम प्रभाकर तुकाराम	(जेसी-459443एम)	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	सुर्वे राजेश दाजी	(जेसी-459399एन)	01 मई 2014
सूबेदार	केंद्रे सतीश सखाराम	(जेसी-459412एम)	01 मई 2014
सूबेदार	मधुसूदन गुप्ता	(जेसी-459518वाई)	02 जुलाई 2014*
*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।			
सूबेदार	दावरे जयवंत गोविंद	(जेसी-459471वाई)	22 जुलाई 2014*
*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।			
सूबेदार	सुरेश देसाई	(जेसी-459541एम)	22 जुलाई 2014*
*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।			
सूबेदार के रैंक में			
नायब सूबेदार	वेंकटप्पा भुसरडी	(जेसी-459948एच)	01 जून 2013
नायब सूबेदार	मोहिते रामराव मारुती	(जेसी-460003एल)	04 मई 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	पाटील सचिन रावसाहेब, एस एम	(जेसी-460140के)	17 मई 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	मनोहर परब	(जेसी-460226एच)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	सोनटक्के रमाकांत भानुदास	(जेसी-460321पी)	01 मार्च 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	प्रताप सिंह	(जेसी-459988के)	01 मई 2013

नायब सूबेदार चौगुले संजय पंडित	(जेसी-460116एन)	27 मई 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार शेख बिसमिल्लाह शेख मुसा	(जेसी-460166वाई)	10 जून 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार गायकवाड महादेव भगवान	(जेसी-460301एफ)	01 जून 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार सुनील	(जेसी-460322एक्स)	20 मई 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार कुलदीप राज	(जेसी-460030पी)	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार खोत जनार्दन महादेव	(जेसी-460329एफ)	30 जुलाई 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जुलाई 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार बाबर लालासाहेब आनंदराव	(जेसी-459998एन)	01 जून 2013
नायब सूबेदार मेट्ला चिना मरैया	(जेसी-460120डब्ल्यू)	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार साबले प्रकाश ज्ञानू	(जेसी-460133एन)	01 जून 2013
नायब सूबेदार देशमुख संजय वसंतराव	(जेसी-460149वाई)	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार वासुदेव नाईक	(जेसी-460255एक्स)	05 जुलाई 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अक्टूबर 2012 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार मनु के एम	(जेसी-460260एच)	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार इंगवले सदाशिव किसन	(जेसी-460375डब्ल्यू)	01 जुलाई 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार सविरिग्ना प्रमाकुमार	(जेसी-460124एम)	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार शिंदे रवीकांत गंगाराम	(जेसी-460162एच)	03 सितम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार सुरडकर विष्णु गुलाब	(जेसी-460209एच)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार मुकुंद नवलिंगा	(जेसी-460264वाई)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार पाटील लक्ष्मण दगडु	(जेसी-459990एफ)	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार धनवडे रमेश शामराव	(जेसी-460218के)	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार जाधव आबासो आनंदराव	(जेसी-460241एक्स)	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार लोमटे बालभीम प्रल्हाद	(जेसी-460265एफ)	07 सितम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार शिंदे गणेश त्रिम्बकराव	(जेसी-460343एन)	04 सितम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार भांडे हनमंत नामदेव	(जेसी-460351एम)	04 सितम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार भाप्कर बापू विठ्ठल	(जेसी-460352पी)	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार पाटील यशवंत रामचंद्र	(जेसी-460000एक्स)	01 अक्टूबर 2013

नायब सूबेदार	पाटील पीतांबर	(जेसी-460113ए)	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	डोइफोडे दादाराव दगडू	(जेसी-460152वाई)	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	रावुल संतोष लक्ष्मण	(जेसी-460173पी)	01 अक्तूबर 2013
नायब सूबेदार	अभंगे संजय हरीचंद्र	(जेसी-460178एन)	06 सितम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	गायकवाड शत्रुघ्ना विठ्ठल	(जेसी-460215डब्ल्यू)	01 अक्तूबर 2013
नायब सूबेदार	तोनापी कल्लपा शंकर	(जेसी-460290ए)	07 सितम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	अल्लासाब नदाफ	(जेसी-460219एम)	06 सितम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	साळुंखे युवराज अन्नप्पा	(जेसी-460279एफ)	20 सितम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	पाटील भरत त्रिम्बक	(जेसी-459935एल)	20 अक्तूबर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	पाटील तानाजी रामू	(जेसी-460068वाई)	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	कटरे बंडू राजाराम	(जेसी-460126एक्स)	01 अक्तूबर 2013
नायब सूबेदार	निंगपा हुंडरे	(जेसी-460163एल)	02 दिसम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	सुरेश देसाई	(जेसी-460165डब्ल्यू)	21 नवम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	गायकवाड वेंकट लिंबराज	(जेसी-460176एच)	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	जगदाले कुमार ज्ञानदेव	(जेसी-460187पी)	10 नवम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	शिकें मिलिंद केशव	(जेसी-460231एन)	07 नवम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अगस्त 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	वेंगडे बाळू विठल	(जेसी-460235के)	20 अक्तूबर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्तूबर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	मनोहर मिराशी	(जेसी-460376वाई)	15 नवम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	देसाई निलेश विठ्ठलराव	(जेसी-460383पी)	15 अक्तूबर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्तूबर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	पाटील पांडुरंग जौलू	(जेसी-460320एम)	17 दिसम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	गावडे अप्पाजी शंकर	(जेसी-459746एफ)	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	अढाव ज्ञानदेव नारायण	(जेसी-460095एच)	01 सितम्बर 2013

नायब सूबेदार जतकर श्रीकांत रामू	(जेसी-460100एच)	12 दिसम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार उस्मान नुचियान	(जेसी-460041एफ)	27 दिसम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार गांगुर्डे ज्ञानेश्वर देवराम	(जेसी-460037वाई)	27 दिसम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार संजय कुमार ईगळे	(जेसी-460194एल)	24 दिसम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार खोत संजय तुकाराम	(जेसी-460210एक्स)	20 दिसम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार लक्ष्मणा सी एस	(जेसी-460108पी)	27 दिसम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार पाटील पंडीत केरबा	(जेसी-460164एन)	17 दिसम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार कुल्जीत सिंह	(जेसी-460229डब्ल्यू)	02 दिसम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार रंधीर सिंह	(जेसी-460268पी)	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार शामलाल शर्मा	(जेसी-460177एल)	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार तिमन्ना मिर्जी	(जेसी-460293एन)	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार कुरेशी अब्दुल कादर महंमदभाई	(जेसी-460217एफ)	02 दिसम्बर 2013*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार सयाजी पाटील	(जेसी-460267एम)	24 जनवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार गवळी बाबासाहेब पंडरीनाथ	(जेसी-460103डब्ल्यू)	20 जनवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार मधुकर पाटील	(जेसी-460047एच)	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार पडाळे विष्णु दत्तोबा	(जेसी-460145एच)	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार मेमने शहाजी विष्णु	(जेसी-460146एल)	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार माने आनंदा कृष्णा	(जेसी-460204के)	17 जनवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार भिरकड नरहरी भुजंगराव	(जेसी-460246डब्ल्यू)	15 जनवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।		
नायब सूबेदार गायकवाड अशोक सहदू	(जेसी-460195एन)	30 जनवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।		

नायब सूबेदार	सिंगधुपे इंद्रप्रकाश सूबेलाल	(जेसी-460296एफ)	25 जनवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	देसाई सूर्यकांत विश्वास	(जेसी-460177डब्ल्यू)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	गायकवाड बाळू रामचंद्र	(जेसी-460214एन)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	निम्से दत्तात्रेय सूर्यभान	(जेसी-460216वाई)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	बोकडे रमेश गोविंद	(जेसी-460247वाई)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	चव्हान अनंदराव शिवराम	(जेसी-460300वाई)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	विलास चौगुले	(जेसी-460135वाई)	02 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	बिचकुले बीरू	(जेसी-460237पी)	01 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	गायकवाड यशवंत गोपाल	(जेसी-460238एक्स)	01 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	गावडे सुभाना जानबा	(जेसी-460212एच)	08 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	सुनील नागरे	(जेसी-460221के)	07 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	घोरपडे नवनाथ शिवराम	(जेसी-460188एक्स)	28 जनवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	पाटील तानाजी नामदेव	(जेसी-460413एफ)	06 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	रबेंद्र प्रसाद पटेल	(जेसी-460174एक्स)	17 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	पी विजय कुमार	(जेसी-460190पी)	15 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	अगलावे गणपत बलराम	(जेसी-460327डब्ल्यू)	14 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	दरेकर संतोष भगवंत	(जेसी-413603एच)	10 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	शंकर दिवटे	(जेसी-460401एम)	12 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	तांबे भाउसाहेब शिवाजी	(जेसी-460418ए)	10 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			

नायब सूबेदार	भंडेर्गे कमलाकर एकनाथराव	(जेसी-460330डब्ल्यू)	01 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 सितम्बर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	यूसुफ एस एम डी	(जेसी-460377एफ)	15 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	राकेश आर कालेकर	(जेसी-460394एफ)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	पाटील काकासाहेब भगवान	(जेसी-460222एम)	04 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	दिलीप कदम	(जेसी-460198एफ)	03 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	मोहिते मचिंद्र बजरंग	(जेसी-460233वाई)	19 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 सितम्बर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	सय्यद रहमतुल्ला	(जेसी-460378के)	15 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	रामचंद्र भुजंग भरनकर	(जेसी-460170एफ)	01 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	पाटील भरत विष्णु	(जेसी-460191एक्स)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	तपसे महेंद्र मारोतराव	(जेसी-460213एल)	26 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	काले प्रभाकर पुंजा	(जेसी-460234एफ)	26 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	मोरे मचिंद्र भीकन	(जेसी-460239ए)	04 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	सोमवंशी युवराज शिवराम	(जेसी-460333के)	20 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	मोहंमद यूसुफ	(जेसी-460388एन)	25 फरवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	चिपडे राजेंद्र रामदास	(जेसी-460389डब्ल्यू)	12 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	धुरी विजय महादेव	(जेसी-460118वाई)	11 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	जगताप तानाजी युवराज	(जेसी-460144ए)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	गजाणन चवान	(जेसी-460196डब्ल्यू)	05 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	भोसले दत्तात्रेय मारुती	(जेसी-460291एच)	01 मार्च 2014

नायब सूबेदार	मोनेश्री भिकू पाटील	(जेसी-460303एम)	10 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	पवार संजय पंडितराव	(जेसी-460308एल)	18 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	मोहंदर कश्यप	(जेसी-460341एच)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	बंकर रमेश भानुदास	(जेसी-460347के)	05 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	महादेव जानु पाटील	(जेसी-460358डब्ल्यू)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	लगमप्पा मेलमट्टी	(जेसी-460316के)	11 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	सवडतकर रमेश सीताराम	(जेसी-460324एच)	11 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	वांगेकर विजय शिवाजी	(जेसी-460232डब्ल्यू)	20 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	सुधाकर गुनागी	(जेसी-460119एफ)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	पास्ते संदीप रामचंद्र	(जेसी-460292एल)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	कुंभार संदीप दशरथ	(जेसी-460554डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	पांचाल ईरप्पा धनप्पा, एस एम	(जेसी-460328वाई)	24 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	राने नारायण येसाबा	(जेसी-460208ए)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	पाटील सुनील बाबासाहेब	(जेसी-460203एफ)	26 जनवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	स्वामी मल्लिकार्जुन अप्पाया	(जेसी-460205एम)	26 जनवरी 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	खोटेले घनश्याम शालिकराम	(जेसी-460495पी)	04 अप्रैल 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	पाटील गोरख दत्तू	(जेसी-460302के)	10 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	मुन्ना	(जेसी-460276एन)	18 अप्रैल 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	खोत रवींद्रनाथ विठोबा	(जेसी-460256ए)	01 मई 2014
नायब सूबेदार	तिपे बालासो परसु	(जेसी-460277डब्ल्यू)	09 मई 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	चवान सुनील शामराव	(जेसी-460315एफ)	12 मई 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है।			

नायब सूबेदार	ननवरे अजीनाथ महादेव	(जेसी-460361डब्ल्यू)	01 मई 2014
नायब सूबेदार	पवार विजय चतुर	(जेसी-460443वाई)	06 जून 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	खेवले राजेश जिंगर	(जेसी-460461एफ)	06 जून 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	गवस संतोश फातु	(जेसी-460359वाई)	05 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	नवले धनंजय दगडु	(जेसी-460530एम)	05 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	बोकम श्रीनवासराम	(जेसी-460531पी)	05 मार्च 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	ढेकले बलवंत नारायण	(जेसी-460104वाई)	01 जुलाई 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	बोराडे अरुण शंकर	(जेसी-460412वाई)	18 जुलाई 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	तानाजी	(जेसी-460460वाई)	09 जुलाई 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है।			
नायब सूबेदार	गोडसे विलास दामोदर	(जेसी-460438एन)	14 जुलाई 2014*
*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।			

वी एन रवीन्द्रन
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 260, दिनांक 31 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को वर्तमान ग्रेड से उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि (पूर्वाहन) से अगले ग्रेड में सहर्ष पदोन्नत करते हैं:-

क्र. सं०	नाम (श्री/श्रीमती/कु०/सुश्री)	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन(रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01	विजेन्द्र सिंह	ए०डी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
02	दीपक कुमार (अनु०जा०)	ए०डी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
03	ए०के० सहगल	ए०डी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011

04	कपिल मुनिराम (अनु०ज०जा०)	ए०डी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2011
05	कमरुद्दीन	ए०डी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2012
06	के०एम० सोनी	ए०डी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2012
07	नौशाद अहमद	ए०डी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2013
01	ए०एस०आर० मूर्ती	ए०एस०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2011
02	बी नरसिम्हा राव (अनु०ज०जा०)	ए०एस०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2011
03	विजयालक्ष्मी	ए०एस०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2012
04	वाई० सम्बासिवा राव	ए०एस०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2012
05	ई मल्लेश	ए०एस०एल०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2012

01	एम०एन० रामासुन्दरा	कैब्स	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2011
02	के०जी० ज्योथी	कैब्स	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2012

01	डी० हेमलता (अनु०जा०)	केयर	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2011
----	-------------------------	------	---------------------	----------------------	--	------------

02	सुरेश कुमार एम0के0	केयर	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
03	एम0 सुमथी	केयर	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
04	सुभद्रा रमेश	केयर	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
05	शीला एम0 (अनु0जा0)	केयर	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
06	पी0 शिव कुमार	केयर	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013

01	संजीव कुमार	सी0सी0ई0 (सी)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
02	ए0के0 सिंह	सी0सी0ई0 (सी)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
03	आर0के0 पुलियानी	सी0सी0ई0 (सी)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
04	दया शंकर सिंह	सी0सी0ई0 (सी)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
05	विनय कुमार अलवेला	सी0सी0ई0 (सी)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013

01	आर0के0 शर्मा	सी0सी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
02	विकास कुमार पान्डा	सी0सी0ई0(ई0)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013

01	भीम राज सिंह नेगी	सी०सी०ई०(एन)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
02	सरवेन्द्र कुमार राय	सी०सी०ई०(एन)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
03	जसबीर सिंह राना	सी०सी०ई०(एन)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
04	धर्मेन्द्र शर्मा	सी०सी०ई०(एन)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
05	कृष्णपाल सिंह	सी०सी०ई०(एन)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
06	मनीश कुमार	सी०सी०ई०(एन)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
07	आई०पी० सिंह	सी०सी०ई०(एन)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
08	विजय कुमार सिंह	सी०सी०ई०(एन)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013

01	पी०वी० रमनय्या	सी०सी०ई०(एस०)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
02	मोहम्मद सनाउल्लाह खान	सी०सी०ई०(एस०)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
03	मोहम्मद मुश्ताक अहमद	सी०सी०ई०(एस०)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
04	एस० सुन्दरा पान्डियन	सी०सी०ई०(एस०)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
05	पी० वेंकटेश	सी०सी०ई०(एस०)	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013

06	पी० विवेकानन्द	सी०सी०ई०(एस०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2013
07	के० श्रीकान्थ (अनु०जा०)	सी०सी०ई०(एस०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2013
08	बी० श्रीनिवास रेड्डी	सी०सी०ई०(एस०)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2013

01	के० अशोक कुमार	सी०सी०ई० (डब्लू)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2011
02	पी० श्रीनिवास राव	सी०सी०ई० (डब्लू)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2012
03	योगेन्द्र सिंह वर्मा	सी०सी०ई० (डब्लू)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2013
04	ए० सिवासुब्रामनियन	सी०सी०ई० (डब्लू)	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2013
क्रम सं०	नाम श्री / श्रीमती / सुश्री / कु०	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन(रु०)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01	एच०पी० रमेश	सेमिलैक	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2011
02	तृप्ति रानी बोस	सेमिलैक	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2012

01	विवेक गर्ग	सेप्टम	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2012
----	------------	--------	------------------	-------------------	---	------------

01	विवेक कुमार	सीफीस	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2011
02	ए०एस० रावत	सीफीस	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2012

03	राजेश कुमार (अनु0जा0)	सीफीस	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
04	नीलम सक्सेना	सीफीस	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
05	शिओ कुमार (अनु0जा0)	सीफीस	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
06	ए0के0 शाक्यावर (अनु0जा0)	सीफीस	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
07	नवीन कुमार सक्सेना	सीफीस	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013

01	एम0 रमादेवी	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
02	जी0एम0 गनेसन	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
03	डेविड रामाचन्द्रन	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
04	मनदीम सोमेश्वरन	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
05	डी मनोहरन	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
06	एन0वी0 रामामूर्थी	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
07	ई0 राजावेल	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
08	एस0 गिरिधरन	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)	01.09.2011

					ग्रेड वेतन—5400 / —	
09	के० पेरुमल	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
10	एस० मुरुगेसन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
11	आर० बालासुब्रामनियन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
12	आर० पलानी	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
13	एस० मोहन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
14	पी० पन्नीरसेल्वम	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
15	जी० थिरुनावुक्कारासू	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
16	के० चन्द्रन (अनु०जा०)	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
17	टी० प्रकाश कुमार	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
18	सी०एम० थुलसी दास	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
19	के० रमेश	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
20	के०वी० मुकुन्दन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012

21	पी० राजेन्द्रन (अनु०जा०)	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
22	वी सेकर	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
23	ए०आर० नागराजन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
24	जी० मीनाक्षीनाथन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
25	सरोजा नागराजन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
26	एम० वेंकटरमन (अनु०जा०)	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
27	जे० सैम डेविडसन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
28	एस० सुब्रामनियम (अनु०जा०)	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
29	ए० रविचन्द्रन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
30	पी० राजमोहन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
31	बीएसएम सिम्हादरी	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
32	एन रविकुमार	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012

33	एम गनानसेहरन	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
34	आर0 दक्षनामूर्थी	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
35	एस0 थोमस	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
36	डी0 थनीकवेल	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
37	पी0पी0 ईश्वरन (अनु0जा0)	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
38	के0 राघवन	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
39	एस0 राजू	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
40	जे0ई0 सायरिल	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
41	एम0 मुथुकृष्णन	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
42	जी0 ईसाईवानन	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
43	बी पान्दुरंगन	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
44	के केसवन	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013

45	विजय कुमार के०	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
46	पी०ए० लीओ केन्नेदी	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
47	बी० रमेश बाबू	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013

01	वी०एम० विश्वनाथ	डेयर	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
----	-----------------	------	------------------	-------------------	--	------------

01	अब्दुल वाजिद खान	डेबेल	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
01	गीता शर्मा	डेसिडाक	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
02	दिनेश के० अग्रवाल	डेसिडाक	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
03	राकेश कुमार (अनु०जा०)	डेसिडाक	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013

01	एस० पंडित श्रीहरी (अनु०ज०जा०)	डी०एफ०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
02	महादेव नाइक (अनु०ज०जा०)	डी०एफ०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
03	एन० अशोक	डी०एफ०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100) ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012

04	एस0 पदमिनी	डी0एफ0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2013
05	पदमश्री ए0	डी0एफ0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2013
06	सी महेश	डी0एफ0आर0एल0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2013

01	नलिनी जोशी	डिबेर	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2011
02	शेर सिंह (अनु0ज0जा0)	डिबेर	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2011
03	यू0सी0 जोशी	डिबेर	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2012
04	मीना शर्मा	डिबेर	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2013

01	श्री अवतार सिंह	डिपास	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2011
02	श्री अमिताभ	डिपास	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2012
03	श्री राजेश कुमार (अनु0जा0)	डिपास	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2013

01	यू0 महेश्वरन	डी0आई0पी0आर0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2013
02	सुकरा राम बोरो (अनु0ज0जा0)	डी0आई0पी0आर0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 / -	01.09.2013

03	आर०के० यादव (अनु०जा०)	डी०आई०पी०आर०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
----	--------------------------	--------------	-------------------	----------------------	---	------------

01	जे०एस० हुड्डा	डी०एल०जे०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
02	मंगी लाल (अनु०जा०)	डी०एल०जे०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
03	मधु सूदन	डी०एल०जे०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
04	वी०वी० कछवहा	डी०एल०जे०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
05	श्याम रनकावत	डी०एल०जे०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
06	एम०एल० रामनी (अनु०जा०)	डी०एल०जे०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
07	संतोष कुमार	डी०एल०जे०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
08	श्रीलाल बिश्नोई	डी०एल०जे०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
09	प्रमोद कुमार शर्मा	डी०एल०जे०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013
10	एस०के० यादव	डी०एल०जे०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2013

01	राजीव कुमार	ई०एम०यू० दिल्ली	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2011
02	एस० गनपथी रमन	ई०एम०यू० दिल्ली	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012

01	एन० मन्जुनाथ (अनु०ज०जा०)	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2011
02	सेशाद्री वी०एस० (एक्सएसएम)	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2011
03	टी० विष्णुवर्धन (अनु०ज०जा०)	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2011
04	वाई० शंकरानंदा	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2011
05	पी० कन्नन	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2011
06	एम०पी० जयप्रकाशन	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2011
07	एस० जयथीरथा	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2011
08	पी०वी० जयप्रकाश	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2011
09	जोयचन थामस	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2011
10	आर० राजाप्पा (अनु०ज०जा०)	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2011
11	टी० सरवना दोस (अनु०जा०)	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	03.09.2012
12	बी०टी० कोडन्डारामू	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	03.09.2012
13	एम०एच० शिवान्दर्	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	03.09.2012

14	आर० सुरेन्द्र (अनु०जा०)	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	03.09.2012
15	रवि कुमार	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	03.09.2012
16	एम० अरिस्टाटल (अनु०जा०)	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	03.09.2012
17	राजशेखर	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	03.09.2012
18	एस० अनवर बाशा	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	03.09.2012
19	मुने गोवडा	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2013
20	वी०एल० सेबेस्टियन	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2013
21	रमेश चन्द्रा	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2013
22	एम० विश्वानाथ	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2013
23	टी०वी० जोस	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2013
24	एन० मधु	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2013
25	वी०आर० मुरलीधरन नायर	जी०टी०आर०ई०	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	02.09.2013

01	डी०पी० श्रीवास्तव	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2011
02	आर०एन० पाटकर	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2011
03	वी०एन० चेतुले	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2011
04	ए०डब्ल्यू० गायकवाड (अनु०जा०)	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2011
05	एन०जी० बाघमारे	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2011
06	आर०के० कश्यप	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2011
07	एस०बी० मुडोलकर	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	05.09.2011
08	एन०डी० लान्घे	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2011
09	पी०जी० अदसुल	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
10	सबेरा एस० अहमद शेख	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
11	डी०एम० गुणे	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
12	पी० मेनन	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
13	एस०एन० पटेल	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012

14	जे०आर० तावरे	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
15	एम०वी० मोडगी	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
16	दीपक प्रताप पाटिल	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
17	एम० सिद्दीकी शेख	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	03.09.2012
18	आर०एम० काले	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	06.09.2013
19	एम०बी० मुपिड (अनु०ज०जा०)	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
20	आर०एम० लागडे (अनु०जा०)	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
21	ए०एस० क्षीरसागर	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
22	डी०आर० ढेंडे (अनु०जा०)	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	02.09.2013
23	सी०ई० भुसारे	एच०ई०एम०आर०एल०	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	05.09.2013

01	सी० शारदा	अनुराग	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012
02	टी० नरेश सिंह	अनुराग	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2012

01	रितु ए० चोपड़ा	मुख्यालय— डी०ए०ई०आर०ओ०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	(15600—39100) +5400 / —	01.09.2012
02	श्री पी मल्लेशम	मुख्यालय—डी०सी० वी० एण्ड ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	(15600—39100) +5400 / —	03.09.2012
03	हर्ष मनी	मुख्यालय—एस०ए० टू सी०ओ०ए०एस०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	(15600—39100) +5400 / —	01.09.2012
04	राखी कशकारी	मुख्यालय—डी०सी० डब्लू० एण्ड ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	(15600—39100) +5400 / —	01.09.2013
05	आनन्द प्रकाश, (अनु०जा०)	मुख्यालय— डी०एल०एस०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	(15600—39100) +5400 / —	01.09.2013

01	हरीश सिंह रावत (अनु०ज०जा०)	इनमास	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2011
02	चमन लाल (अनु०जा०)	इनमास	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
03	वी०के० नागपाल	इनमास	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
04	मिता दत्ता	इनमास	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2012
05	नत्थू सिंह (अनु०जा०)	इनमास	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013
06	अवधेश कुमार (अनु०ज०जा०)	इनमास	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 / —	01.09.2013

नरेश विदी
संयुक्त निदेशक (कार्मिक—टी०सी०)

सेना शाखा

सं. 261, दिनांक 31 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को अपना पद छोड़ने पर रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

त्यागपत्र

कैप्टन अशीश देवगन

(टीए-42335)

(इन्फैन्ट्री)

18 अगस्त 2013

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 262, दिनांक 3 नवम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

लै0 कर्नल कौशिक साहा	टीए(एम)—1161	(ए0एम0सी टीए)	31 जनवरी 2014 (अप0)
लै0 कर्नल डी एम दफेदार	(टीए-42263)	(इन्फैन्ट्री)	30 अप्रैल 2014

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th November 2014

ARMY BRANCH

No. 254, dated 28th October 2014—The President is pleased to make the following appointment :-

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

TO BE LT

Bhupender Singh Maan	TA-42885	(Infantry)	14 Aug 2013
Sanjeev Kumar Gupta	TA-42903	(Engr TA)	06 Dec 2013
Himanshu Joshi	TA-42906	(Engr TA)	06 Feb 2014
Binayak Behera	TA-42910	(Engr TA)	20 Feb 2014
Dinesh Kumar	TA-42911	(Engr TA)	24 Feb 2014
Amit Swami	TA-42914	(Engr TA)	06 Mar 2014

The President is pleased to make the following appointment :-

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

SS-40098F Ex Captain Siddharth Jadli now TA-42764 Lieutenant Siddharth Jadli has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 28 Apr 2010 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Act Rule 1948. He is also granted five years (08 Mar 2003 to 07 Mar 2008) ante date seniority with effect from 28 Apr 2005 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Captain with effect from 28 Apr 2009 and Maj with effect from 28 Apr 2013 with notional seniority for pay and promotion in the rank of the Captain with effect from 28 Apr 2010 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of TA Act 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No 18(1)2006/D (GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

B B JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 255, dated 28th October 2014—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

1. The under mentioned WSES(O)s have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 06 Sep 2013, on relinquishing her WSES(O)s Commission wef 06 Sep 2013 :-

Ser No	Personal No	IC No allotted	Name	Arms/Services
(a)	WS 00809N	IC-66030X	SEEMA TRIPATHI	AEC
(b)	WS 00824H	IC-66031A	SURABHI RAWAL	AEC
(c)	WS 00841H	IC-66033L	GODBOLE SARIKA SATYENDRA	AEC

2. The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :-

- (i) The Date for increments of pay - 06 Sep 2003
- (ii) The date for promotion - 06 Mar 2004

3. The inter-se-seniority, vis-à-vis those offr commissioned on the same date and granted permanent commission with same seniority for promotion, will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of commission to WSES(O)s/SSCOs. In case the date of seniority of the above offr coincides with Regular officers commissioned from IMA, she will be placed junior to Regular officer commissioned from IMA.

1. The under mentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 06 September 2013, on relinquishing his Short Service Commission wef 06 September 2013:-

Ser No	SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-40332M	IC-65948L	ATUL MEHTA	INF

2. The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

- (a) Date for increments of pay - 06 September 2003
 (b) Date of seniority for promotion - 06 May 2005

3. The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

1. The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 06 September 2013, on relinquishing his Short Service Commission wef 06 September 2013:-

Ser No	SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS 40279M	IC-65911K	AMIT KANWAR	INF
(b)	SS 40281K	IC-65913P	BRAHMACHARIMAYUM HIRENDRA SHARMA	INF
(c)	SS 40284X	IC-65915A	ASHOK BHANDARI	INF
(d)	SS 40303X	IC-65927P	SURENDRA SINGH MEHTA	ARTY
(e)	SS 40304A	IC-65928X	RAJEEV TOMAR	INF
(f)	SS 40311W	IC-65934L	KAMAL RAWAT	INF
(g)	SS 40313F	IC-65936W	KUNWAR SINGH NEGI	INF
(h)	SS 40320X	IC-65941F	AMITABH DAGAR	ASC
(j)	SS 40323L	IC-65942K	DINESH PRAKASH KADIYAN	INF
(k)	SS 40342W	IC-65954Y	TARUN KANWAR	ASC
(l)	SS 40365X	IC-65966N	PRATAP KUMAR	INF
(m)	SS 40372N	IC-65971Y	ABHYANKAR ROHIT SURESH	ENGRS
(n)	SS 40378P	IC-65973K	SALIM KHAN	INF
(o)	SS 40393K	IC-65981H	D PAVAN RAO	ARTY
(p)	SS 40410X	IC-65986F	GP KESHAV	INF
(q)	SS 40406W	IC-65989P	KUMAR SAURABH	ARTY
(r)	SS 40412K	IC-65990K	ARSHPREET SINGH	MECH
(s)	SS 40420H	IC-65995H	ABHINAV	ASC
(t)	SS 40423W	IC-65998W	BHUPESH PATHANIA	EME
(u)	SS 40426K	IC-65999Y	RATNESH KUMAR	AAD
(v)	SS 40443K	IC-66006F	VIRESH PRATAP SINGH	MECH
(w)	SS 40447A	IC-66007K	SAMEER DAHIVELKAR	ARTY
(x)	SS 40459P	IC-66012P	YESHIKA AWOMI	INF

2. The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

- (a) Date for increments of pay - 06 September 2003
 (b) Date of seniority for promotion - 06 May 2004

3. The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

1. The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 09 May 2013, on relinquishing their Short Service Commission wef 09 May 2013 :-

Ser No	SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-41528M	IC-66688X	SANTOSH KUMAR BHARMORIA	INF

(b)	SS-41581X	IC-66689A	RANJEET SINGH	AC
(c)	SS-41705F	IC-66690P	CHANDAN KHARYAL	ARTY
(d)	SS-41718Y	IC-66691X	ADWIT PATNAIK	INF

2. The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

(a) Date for increments of pay -17 Sep 2005

(b) Date of seniority for promotion - 17 Apr 2007

3. The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 8 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

1. The under mentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 22 Mar 2013, on relinquishing his Short Service Commission wef 22 Mar 2013:-

Ser No	SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-42879N	IC-73504W	RINTOMON THACHIL	INF
(b)	SS-42917Y	IC-73538K	ABHINAV BAJPAI	INF
(c)	SS-42930H	IC-73547L	ASHISH SABHAJEET UPADHYAY	AOC
(d)	SS-43006P	IC-73605K	ASHISH SHAHI	INF

2. The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

(a) Date for increments of pay - 22 Mar 2008

(b) Date of seniority for promotion - 22 Oct 2008

3. The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 05 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

1. The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 20 Sep 2013, on relinquishing their Short Service Commission wef 20 Sep 2013 :-

Ser No	SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-43195K	IC-73647W	MORE BHARATBHUSHAN RAMACHANDRA	ENGRS

2. The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

(a) Date for increments of pay - 20 Sep 2008

(b) Date of seniority for promotion - 20 Apr 2009

3. The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

1. The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 20 Sep 2013, on relinquishing their Short Service Commission wef 20 Sep 2013 :-

Ser No	SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-43190L	IC-73643A	ANIL NEHRA	ARTY
(b)	SS-43193Y	IC-73645L	DIGVIJAY SINGH CHAUHAN	ENGRS
(c)	SS-43196M	IC-73648Y	RAKESH KUMAR KANDARI	ARTY
(d)	SS-43201M	IC-73652F	NARENDRA SINGH	AAD
(e)	SS-43223L	IC-73670K	JAGVEER SINGH BIDAWAT	ARTY
(f)	SS-43226Y	IC-73673X	JAGJEET SINGH	INF
(g)	SS-43287W	IC-73724A	SATYENDRA	ENGRS

2. The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

(a) Date for increments of pay- 20 Sep 2008

(b) Date of seniority for promotion - 20 Apr 2009

3. The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

1. The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 20 Sep 2013, on relinquishing their Short Service Commission wef 20 Sep 2013 :-

Ser No	SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-43222H	IC-73669P	AGNISH GHOSE	INF
(b)	SS-43248X	IC-73692H	KARAN BAINS	ARTY

2. The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

(a) Date for increments of pay - 20 Sep 2008

(b) Date of seniority for promotion - 20 Apr 2009

3. The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

1. The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 20 Sep 2013, on relinquishing their Short Service Commission wef 20 Sep 2013 :-

Ser No	SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS43186H	IC-73639 X	ARAVINDAR SINGH C	MECH
(b)	SS43194F	IC-73646 N	BHUPESH KUMAR	ARTY
(c)	SS43199A	IC-73650 W	PRASHANT JANKAR	ARTY
(d)	SS43200K	IC-73651 Y	DESAI ADITYA SATISH	ENGRS
(e)	SS43202P	IC-73653 K	VARUN KUMAR SINGH	INF
(f)	SS43205H	IC-73655 P	RITURAJ AHLAWAT	INF
(g)	SS43209Y	IC-73658 H	CHANDRA SHEKHAR GIRI	ARTY
(h)	SS43211W	IC-73660 A	KUMAR SUMANT	ARTY
(j)	SS43214K	IC-73663 N	GROVER INDERJEET SINGH SURJEET SINGH	INF
(k)	SS43215M	IC-73664 W	ASHUTOSH SHRIVASTAVA	ARTY
(l)	SS43217X	IC-73665 Y	VIJENDER KUMAR	AAD
(m)	SS43219H	IC-73666 F	RAJEEV SHARMA	AC
(n)	SS43220X	IC-73667 K	RISHIV SALATHIA	ARTY
(o)	SS43221A	IC-73668 M	LUNKIM PAOLENTHANG KHONGSAI	INF
(p)	SS43228K	IC-73674 A	SHASHI KUMAR	INF
(q)	SS43229M	IC-73675 H	ADITYA SHARMA	AAD
(r)	SS43230F	IC-73676 L	KASI TRINADH NETTI	AC
(s)	SS43231K	IC-73677 N	ABHITOSH	ARTY
(t)	SS43232M	IC-73678 W	KRISHAN KUMAR	AC
(u)	SS43234X	IC-73680 N	VIVEK YADAV	MECH
(v)	SS43235A	IC-73681 W	M SANTHOSH	ARTY
(w)	SS43236H	IC-73682 Y	V VENKAT RAGHAVAN	ARTY
(x)	SS43237L	IC-73683 F	TALUNVIR SINGH DHILLON	INF
(y)	SS43239W	IC-73685 M	RAHUL SINGH BAGHEL	AC
(z)	SS43240L	IC-73686 P	ASHISH SIDHAWAT	EME
(aa)	SS43242W	IC-73688 A	RAJAN KUMAR	INF

(ab)	SS43245K	IC-73689 H	PUSHPENDRA PRATAP BHATT	ARTY
(ac)	SS43246M	IC-73690 X	S KIRAN	EME
(ad)	SS43249A	IC-73693 L	PIYUSH KUMAR TRIPATHI	ARTY
(ae)	SS43250P	IC-73694 N	VIJENDRA S YADAV	AC
(af)	SS43254L	IC-73697 F	SUNEEL KUMAR TADI	ARTY
(ag)	SS43255N	IC-73698 K	LOUREMBAM BISWAPREM MEITEI	ARTY
(ah)	SS43256W	IC-73699 M	SANJESH KUMAR BHAWNANI	MECH
(aj)	SS43257Y	IC-73700 W	GOMIT DUBEY	INF
(ak)	SS43259K	IC-73702 F	RAVI PRATAP SINGH	EME
(al)	SS43262K	IC-73704 M	ALOK SINGH	AC
(am)	SS43265X	IC-73705 P	MAHESH KUMAR JAKHAR	ARTY
(an)	SS43266A	IC-73706 X	PARIKSHIT PANWAR	INF
(ao)	SS43273W	IC-73710 A	VINEET CHHILLAR	ARTY
(ap)	SS43275F	IC-73712 L	K KARTHIK	ARTY
(aq)	SS43276K	IC-73713 N	JAVED HUSSAIN	ARTY
(ar)	SS43277M	IC-73714 W	SHANTANU HARDE	INF
(as)	SS43278P	IC-73715 Y	KH SHEM	INF
(at)	SS43280M	IC-73717 K	AVTAR SINGH	AAD
(au)	SS43281P	IC-73718 M	NAMEIRAKPAM DEEPAK SINGH	INF
(av)	SS43282X	IC-73719 P	RAVINDER SINGH SAINI	INF
(aw)	SS43283A	IC-73720 K	GURPREET SINGH SOKHEY	ARTY
(ax)	SS43284H	IC-73721 M	AJAY SINGH	ARTY
(ay)	SS43285L	IC-73722 P	CHANDAN SINGH	ARTY
(az)	SS43286N	IC-73723 X	DEEPAK KANWASI	AC
(ba)	SS43290W	IC-73726 L	AJAY LOCHAB	INF
(bb)	SS43292F	IC-73727 N	CHAVAN NIKHIL ARVIND	AAD
(bc)	SS43293K	IC-73728 W	GOKHALE KETAN DILIP	INF
(bd)	SS43295P	IC-73729 Y	RAJNEESH PRATAP SINGH	INF
(be)	SS43298H	IC-73731 W	VIVEK SINGH	ARTY
(bf)	SS43299L	IC-73732 Y	AMIT SHARMA	ARTY
(bg)	SS43301X	IC-73734 K	ARNAB GHOSAL	AC
(bh)	SS43303H	IC-73736 P	SHASHANK GAUR	ARTY
(bj)	SS43304L	IC-73737 X	KARTHIKEYA SAINI	INF
(bk)	SS43305N	IC-73738 A	SHAKTI SINGH	INF
(bl)	SS43306W	IC-73739 H	VISHAL TIWARI	INF
(bm)	SS43307Y	IC-73740 X	VINOD KUMAR PANDEY	ARTY
(bn)	SS43309K	IC-73741 A	DUSHYANT BISHNOI	INF
(bo)	SS43311F	IC-73743 L	IRFAN AHMED KHAN	AAD
(bp)	SS43312K	IC-73744 N	KANCHAN KUMAR	INF
(bq)	SS43317H	IC-73748 K	SHIVA SAIGAL	ARTY
(br)	SS43320H	IC-73751 K	GAUTAM SINGH	INF
(bs)	SS43322N	IC-73753 P	BHARTENDU GAUTAM	ARTY
(bt)	SS43323W	IC-73754 X	VIRENDRA SINGH CHANDEL	INF

2. The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

(a) Date for increments of pay - 20 Sep 2008

(b) Date of seniority for promotion - 20 Apr 2009

3. The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

1. The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 09 May 2013, on relinquishing their Short Service Commission wef 09 May 2013.

Ser No	SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-41506N	IC-66535N	GURVINDER SINGH BHATTI	ENGRS

2. The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

(a) Date for increments of pay - 17 Oct 2003

(b) Date of seniority for promotion - 17 Oct 2004

(After depressing 12 months seniority with respect to the date of seniority assigned to the officer of their batch who were granted permanent commission on completing of 8 years of service)

3. The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 8 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

JEETENDRA OHRI

Col

Col MS 7

ARMY BRANCH

No. 256, dated 29th October 2014—The President is pleased to make the following promotion :

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

TO BE LT COL

Maj Tejpal Singh Bajwa TA-42605 (Infantry) 20 Jun 2014.

TO BE MAJ

Capt Pankaj G Muley	TA-42471	(Engineer TA)	01 Jun 2008
Capt Rajesh Tiwari	TA-42644	(Engineer TA)	12 Sep 2013
Capt Vinit Kumar Chadha	TA-42646	(Engineer TA)	12 Sep 2013
Capt Prasant Kumar Singh	TA-42660	(Engineer TA)	17 Apr 2014

TO BE CAPT

Lt Chhatrapal Chauhan TA-42768 (Infantry) 08 May 2014

Lt Prashaant TA-42769 (Infantry) 18 May 2014

B B JOSHI

Under Secy

ARMY BRANCH

No. 257, dated 29th October 2014—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

TO BE SUBEDAR MAJOR

Sub	Devendra Singh	JC-803178H	@03-03-2014
@ Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.			

TO BE SUBEDAR

Nb Sub	Shiv Prasad Swarnkar	JC-804041H	\$19-10-2013
\$Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2013 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Mohinder Singh	JC-804058W	@27-03-2014
Nb Sub	Tribhuwan Narayan Singh	JC-804081K	*09-12-2013
Nb Sub	Bikram Singh Rawat	JC-804092W	01-12-2013
* Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.			
@ Granted seniority in the rank of Sub wef 03 Dec 2013 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Venugopal N	JC-804107N	@13-01-2014
@ Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Sayyad Baba Saheb Gani	JC-804128K	01-02-2014
Nb Sub	Rajeev Kumar B	JC-804133P	01-02-2014
Nb Sub	P Babu Vijaya Kumar	JC-804135A	01-03-2014
Nb Sub	Ummed Singh	JC-804136H	01-03-2014
Nb Sub	Sumohan Nayak	JC-804137L	01-03-2014
Nb Sub	Pravin Chandra Ojha	JC-804138N	01-03-2014
Nb Sub	Jagdish Tiwari	JC-804139W	#03-03-2014
Nb Sub	Vijay Kumar Gupta	JC-804141N	01-03-2014
Nb Sub	Ganesh Datta Sharma	JC-804142W	01-03-2014
Nb Sub	Rajender Kumar	JC-804143Y	01-03-2014
Nb Sub	Vijay Singh	JC-804144F	01-03-2014
Nb Sub	Mrityunjoy Das	JC-804465Y	01-03-2014
#Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Shyam Kishore	JC-804145K	01-04-2014
Nb Sub	Om Prakash Singh Yadav	JC-804146M	01-04-2014
Nb Sub	Jai Bhagwan	JC-804147P	01-04-2014
Nb Sub	Radha Krishnan Nair V	JC-804152A	01-04-2014
Nb Sub	Anil Kumar	JC-804154L	01-04-2014
Nb Sub/Clk	Goutam Saha	JC-804482Y	01-04-2014
Nb Sub	Devendra Singh	JC-804155N	#05-05-2014
Nb Sub	Dinesh Singh	JC-804156W	01-05-2014
Nb Sub	Bhuwan Chandra Bhatt	JC-804157Y	01-05-2014
Nb Sub/Clk	P Saravanan	JC-804484K	01-05-2014
#Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2014 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Dharvendra Singh	JC-804158F	*21-06-2014
Nb Sub	Babu Ram	JC-804159K	*04-06-2014
Nb Sub	Kalyan Singh	JC-804160Y	*23-06-2014
Nb Sub	Gajpal Singh Rawat	JC-804164P	*23-06-2014
Nb Sub	Prakash Chand	JC-804166A	*14-06-2014
Nb Sub	Rakesh Kumar Thakur	JC-804167H	*23-06-2014
Nb Sub	Suresh Chandra	JC-804170H	*17-06-2014
Nb Sub	Lalan Kishor Thakur	JC-804171L	*20-06-2014

Nb Sub	Gulab Singh	JC-804172N	*25-06-2014
Nb Sub	Jagdish Chand	JC-804173W	*03-06-2014
Nb Sub	Prafulla Kumar Jena	JC-804175F	*07-06-2014
Nb Sub	Chavan Ashok Chandrakant	JC-804178P	*27-06-2014
Nb Sub	Pramod Kumar	JC-804300A	*05-06-2014
Nb Sub	Rajendran C	JC-804181P	*19-06-2014
Nb Sub	Dhan Singh	JC-804182X	*12-06-2014
Nb Sub	Khiroda Chandra Jena	JC-804184H	*14-06-2014
Nb Sub	Attar Singh	JC-804186N	*05-06-2014
Nb Sub	Dilip Kumar Maity	JC-804192F	*05-06-2014
Nb Sub	Rajbir	JC-804193K	*06-06-2014
Nb Sub	Parameswar Swain	JC-804194M	*07-06-2014
Nb Sub	Ranaut Kuldip Kumar Atmaram	JC-804195P	*07-07-2014
Nb Sub	Gulab Singh	JC-804198H	*09-07-2014
Nb Sub	Rabindra Kumar Choudhary	JC-804199L	*09-07-2014
Nb Sub	Mohan Kumar Das	JC-804201X	*07-07-2014
Nb Sub	Kunju Krishna Pillai R	JC-804206W	*17-06-2014
Nb Sub	Naveen Kumar	JC-804207Y	*17-06-2014
Nb Sub	Ravindra Singh	JC-804208F	*25-06-2014
*Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Pradip Kumar Bhowmik	JC-804211F	\$07-07-2014
Nb Sub	Rajendra Singh	JC-804218L	\$07-07-2014
Nb Sub	Anindya Chakraborty	JC-804219N	01-07-2014
Nb Sub	Devendra Kumar Pandey	JC-804222N	01-07-2014
Nb Sub	Umesh Kumar	JC-804225F	01-07-2014
Nb Sub	Shri Bhagwan	JC-804226K	01-07-2014
\$Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances.			

TO BE NAIB SUBEDAR

Hav	Prem Kumar R	(9511877X Now JC-804881H)	#10-02-2014
#Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2013 without effect on pay and allowances.			
Hav	Kamlesh Kumar Sharma	(9512030A Now JC-804902N)	01-02-2014
Hav/Clk	Reghu T	(9510984M Now JC-804910M)	01-03-2014
Hav	Rajendran ER	(9512055M Now JC-804911P)	01-03-2014
Hav	Piray Lal	(9512056P Now JC-804912X)	01-03-2014
Hav	Suresh E	(9512064N Now JC-804913A)	01-03-2014
Hav	Narender Singh	(9512072M Now JC-804914H)	01-03-2014
Hav	Krishna Kant Awasthi	(9512073P Now JC-804915L)	01-03-2014
Hav	Abhaya Kumar Rath	(9512076H Now JC-804916N)	01-03-2014
Hav	Davinder Singh	(9512081N Now JC-804917W)	01-03-2014
Hav	Manoj Kumar Thakur	(9512084F Now JC-804918Y)	01-03-2014
Hav	Jagmal Singh Kushwaha	(9512085K Now JC-804919F)	01-03-2014

Hav	Sudin Chowdhury	(9512089A Now JC-804920W)	@25-03-2014
Hav	Manoj Kumar Singh	(9512091X Now JC-804921Y)	01-03-2014
Hav	Mohan Charan Swain	(9511943P Now JC-804922F)	\$01-04-2014
Hav	Anil Kumar Shukla	(9511952W Now JC-804923K)	\$01-04-2014
@ Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.			
\$ Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Mar 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav/Clk	Abhijit Maiti	(4270445M Now JC-804924M)	01-04-2014
Hav/Clk	Badri Datt Kandpal	(9510982F Now JC-804925P)	01-04-2014
Hav	Baljinder Singh	(9512093H Now JC-804926X)	01-04-2014
Hav	Vinod Kumar	(9512095N Now JC-804927A)	01-04-2014
Hav	Yashpal Katogh	(9512097Y Now JC-804928H)	01-04-2014
Hav	Naresh Kumar	(9512100N Now JC-804929L)	01-04-2014
Hav	Kuldeep Singh	(9511974P Now JC-804930A)	#01-05-2014
#Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Apr 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav/Clk	Kailash Chandra Rauta	(4270551L Now JC-804931H)	01-05-2014
Hav	Sri Kundan Shrivastava	(9512102Y Now JC-804932L)	*02-05-2014
Hav	Bipen Kumar	(9512103F Now JC-804933N)	01-05-2014
Hav	Manjunath KR	(9512106P Now JC-804934W)	01-05-2014
Hav	M Vetrivel	(9512113L Now JC-804935Y)	01-05-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Biswanatha Mishra	(9511525A Now JC-804936F)	@01-05-2014
@Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ashok Kumar Dhiman	(9512114N Now JC-804937K)	@10-06-2014
Hav	Ajit Kumar Singh	(9512117F Now JC-804938M)	01-06-2014
Hav	Raj Kumar	(9512121K Now JC-804939P)	01-06-2014
Hav	Chandra Bhan Goswami	(9512122M Now JC-804940K)	@05-06-2014
Hav	Sanjeev Rajput	(9512126H Now JC-804941M)	01-06-2014
Hav	Karuna Nidhan Tiwari	(9512131N Now JC-804942P)	01-06-2014
Hav	Kuldeep Raj	(9512132W Now JC-804943X)	@02-06-2014
Hav	Dan Bahadur Mishra	(9512133Y Now JC-804944A)	@02-06-2014
Hav	Ronald VPR	(9512135K Now JC-804945H)	01-06-2014
Hav	Pramod Kumar Singh	(9512137P Now JC-804946L)	01-06-2014
Hav	Santhosh Kumar GP	(9512142A Now JC-804947N)	11-06-2014
Hav	Om Prakash Pandey	(9512143H Now JC-804948W)	@09-06-2014
Hav	Purushothaman Nair C	(9512145N Now JC-804949Y)	01-06-2014
Hav	Uday Bhanu Mukherjee	(9512150Y Now JC-804950N)	01-06-2014
Hav	Jaipal Singh	(9512151F Now JC-804951W)	01-06-2014
Hav	Tuna Sahu	(9512156A Now JC-804952Y)	01-06-2014
Hav	Charan Singh Uprari	(9512157H Now JC-804953F)	01-06-2014
Hav	Harish Kumar	(9512158L Now JC-804954K)	01-06-2014
Hav	Sri Govardhan Prasad Mishra	(9512161L Now JC-804955M)	@02-06-2014
Hav	Sanjeev Kumar Wankhede	(9512162N Now JC-804956P)	01-06-2014

Hav	Bhavesht Gupta	(9512163W Now JC-804957X)	@02-06-2014
Hav	Satya Prakash Upadhyay	(9512174H Now JC-804958A)	@04-06-2014
Hav	Tarun Kumar Sur	(9512176N Now JC-804959H)	@02-06-2014
Hav	D Yesudas	(9512179F Now JC-804960X)	01-06-2014
Hav	Ripu Mardan Kumar	(9512182F Now JC-804961A)	@02-06-2014
Hav	Purna Chandra Panda	(9512184M Now JC-804962H)	01-06-2014
Hav	Pramod Chandra	(9512187A Now JC-804964N)	01-06-2014
Hav	Babu Lal	(9512225L Now JC-804965W)	01-06-2014
Hav	Krishna Mohan Mishra	(9512228Y Now JC-804966Y)	@06-06-2014
Hav	Laliteshwar PD Singh	(9512229F Now JC-804967F)	01-06-2014
Hav	Rajesh Kumar	(9512232F Now JC-804968K)	@02-06-2014
Hav	Chandra Singh	(9512233K Now JC-804969M)	01-06-2014
Hav	Sushil Kumar	(9512234M Now JC-804970F)	@02-06-2014
Hav	Thengde Satyviay Fakirrao	(9512237A Now JC-804971K)	@02-06-2014
Hav	C Manikandan	(9512238H Now JC-804972M)	@02-06-2014
Hav	Amrit Pradhan	(9512241H Now JC-804973P)	@02-06-2014
Hav	Santosh Kumar R	(9512242L Now JC-804974X)	@11-06-2014
Hav	Santosh Roy	(9512243N Now JC-804975A)	01-06-2014
Hav	Paidi Narayana Murty	(9512244W Now JC-804976H)	@02-06-2014
Hav	Subhash Chand	(9512245Y Now JC-804977L)	@02-06-2014
Hav	Sawant Vijay Vithal	(9512249P Now JC-804978N)	01-06-2014
Hav	Pintu Basu	(9512250K Now JC-804979W)	01-06-2014
@Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Surender Singh	(9512256L Now JC-804981N)	01-07-2014
Hav	Ajayendra Pathak	(9512258W Now JC-804982W)	01-07-2014
Hav	Dileep Singh Fandan	(9512262Y Now JC-804983Y)	01-07-2014
Hav	Todkar Navnath Dinkar	(9512272H Now JC-804985K)	01-07-2014
Hav	Rakesh Kumar	(9512273L Now JC-804986M)	01-07-2014
Hav	Hem Raj	(9512280F Now JC-804987P)	01-07-2014
Hav	Nirmal Chaudhary	(9512281K Now JC-804988X)	01-07-2014
Hav	Pavan Kumar	(9512282M Now JC-804989A)	01-07-2014
Hav	Shaitan Singh	(9512284X Now JC-804990P)	01-07-2014
Hav	Khemraj Sharma	(9512285A Now JC-804991X)	01-07-2014

ALKA JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

REGIMENT OF ARTILLERY

No. 258, dated 30th October 2014—The President is pleased to make the following promotions :-

TO BE NAIB SUBEDAR (CLERK SD & SKsT)

Ser No	Rank	Name	Army No & JC No	Date of Promotion
1.	Hav (Clk/SD)	Madugula Mohana Rao	(No 14403762H Now JC-280173M)	01 Jan 2014 01 Jan 2013*

2.	Hav (Clk/SD)	Bahadur Singh	(No 15122814A Now JC-280251Y)	09 Jan 2014 01 Jan 2014*
3.	Hav (Clk/SD)	Vijai Singh	(No 15124284P Now JC-280252F)	01 Jan 2014
4.	Hav (Clk/SD)	Ranjit Singh Chambail	(No 15121546P Now JC-280174P)	01 Jan 2014
5.	Hav (Clk/SD)	Sukhdev Raj	(No 15124004W Now JC-280066L)	01 Jan 2014
6.	Hav (Clk/SD)	Ashok Kumar Yadav	(No 15123257Y Now JC-280175X)	01 Jan 2014
7.	Hav (Clk/SD)	Nara Bahadur Newar	(No 15121200L Now JC-280176A)	01 Jan 2014
8.	Hav (Clk/SD)	Chaudhari Mahendra Nath Kashinath	(No 15124141P Now JC-280491W)	17 Jan 2014 01 Jan 2014*
9.	Hav (Clk/SD)	Brundaban Jena	(No 15125883F Now JC-280177H)	09 Jan 2014 01 Jan 2014*
10.	Hav (Clk/SD)	Virender Singh	(No 15125897F Now JC-280067N)	01 Jan 2014
11.	Hav (Clk/SD)	Mahesh Kumar	(No 15126061W Now JC-280217Y)	01 Jan 2014
12.	Hav (Clk/SD)	Suryavanshi Satish Asaram	(No 15126580Y Now JC-280068W)	01 Jan 2014
13.	Hav (Clk/SD)	Rakesh Kumar	(No 15124500X Now JC-280069Y)	01 Jan 2014
14.	Hav (Clk/SD)	Tambe Babasaheb Balwant	(No 15126587H Now JC-280253K)	01 Jan 2014
15.	Hav (Clk/SD)	Hari Kumar S	(No 15124002L Now JC-280894W)	26 Jan 2014 01 Jul 2013*
16.	Hav (Clk/SD)	Aravendra Kumar	(No 15126674W Now JC-280178L)	01 Jan 2014
17.	Hav (Clk/SD)	Chandra Bhushan Pratihast	(No 15126972M Now JC-280179N)	01 Jan 2014
18.	Hav (SKT)	Pawar Rajendra Govind	(No 15121976Y Now JC-280180H)	01 Jan 2014
19.	Hav (SKT)	Naik Ashok Shamsher	(No 15121980F Now JC-280181L)	01 Jan 2014
20.	Hav (SKT)	Pusarla Sivanarayana	(No 15122365W Now JC-280255P)	15 Jan 2014 01 Jan 2014*
21.	Hav (SKT)	Nagaraj Kumbar	(No 14413754X Now JC-280182N)	01 Jan 2014
22.	Hav (SKT)	Etesh Kumar	(No 14413757L Now JC-280256X)	01 Jan 2014
23.	Hav (SKT)	Arun Kumar	(No 14413876F Now JC-280183W)	01 Jan 2014
24.	Hav (SKT)	Velu PS	(No 14413988F Now JC-280184Y)	01 Jan 2014
25.	Hav (Clk/SD)	Triloki Nath Singh	(No 15126846A Now JC-280128F)	13 Jan 2014 01 Jan 2014*
26.	Hav (Clk/SD)	Prasanna Kumar Rout	(No 15126751A Now JC-280254M)	13 Jan 2014 01 Jan 2014*
27.	Hav (SKT)	Panjatsaram G	(No 14413989K Now JC-280257A)	13 Jan 2014 01 Jan 2014*
28.	Hav (Clk/SD)	Ravish Kumar	(No 15126899Y Now JC-280492Y)	04 Feb 2014 01 Feb 2014*
29.	Hav (Clk/SD)	Sanjaya Padhan	(No 15127011X Now JC-280493F)	16 Feb 2014 01 Feb 2014*
30.	Hav (Clk/SD)	T Jaya Kumar	(No 15125875H Now JC-280494K)	03 Feb 2014 01 Feb 2014*
31.	Hav (Clk/SD)	Kunnure Sanjay Digambar	(No 15128288H Now JC-280550X)	01 Feb 2014
32.	Hav (Clk/SD)	Suresh S	(No 15128177L Now JC-280495M)	01 Feb 2014
33.	Hav (SKT)	Bhaskar CH Samantaray	(No 15122742F Now JC-280551A)	13 Feb 2014 01 Feb 2014*
34.	Hav (SKT)	Santosh Kumar Biswas	(No 15120795F Now JC-280496P)	01 Feb 2014

35.	Hav (SKT)	Nirmal Singh	(No 14414096H Now JC-280497X)	01 Feb 2014
36.	Hav (Clk/SD)	Vikash Kumar Jha	(No 15128201W Now JC-280552H)	01 Mar 2014
37.	Hav (Clk/SD)	Ajaya Kumar A	(No 15128245N Now JC-280498A)	01 Mar 2014
38.	Hav (Clk/SD)	Rajesh Baboo Pal	(No 15128252K Now JC-280765W)	01 Mar 2014
39.	Hav (Clk/SD)	Birju Sah	(No 15128262N Now JC-280499H)	01 Mar 2014
40.	Hav (Clk/SD)	Sree Ram Singh Yadav	(No 15128274H Now JC-280776Y)	01 Mar 2014
41.	Hav (Clk/SD)	Amrendra Singh	(No 15128276N Now JC-280553L)	01 Mar 2014
42.	Hav (Clk/SD)	Koche Mahendra Kumar Shrawan	(No 15128355H Now JC-280554N)	01 Mar 2014
43.	Hav (Clk/SD)	Narinder Kumar	(No 15128493K Now JC-280555W)	01 Mar 2014
44.	Hav (SKT)	Rajesh Kumar	(No 15122850L Now JC-280500M)	01 Mar 2014
45.	Hav (Clk/SD)	Sri Umesh Kumar Chaturvedi	(No 15128179W Now JC-280501P)	01 Mar 2014 01 Oct 2013*
46.	Hav (Clk/SD)	Arabinda Sarkar	(No 15124263Y Now JC-280767F)	01 Mar 2014
47.	Hav (Clk/SD)	Lokesh Sharma	(No 15126022X Now JC-280768K)	01 Mar 2014

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces)

DEEPAK NARANG
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 259, dated 30th October 2014—The President is pleased to make the following promotions: -

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MARATHA LI

TO BE SUB MAJ (GD)

Sub	Manohar Krushna Nimbalkar	(JC-459222A)	05 Jul 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub Maj (GD) with effect from 01 Jul 2013 without effect on pay and allowances.		
Sub	Desale Himmatrao Vishnu	(JC-459252X)	01 Jun 2013
Sub	Suresh Kumar S	(JC-459134K)	01 Sep 2013
Sub	Patil Keshav Pandurang	(JC-459192N)	02 Oct 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub Maj (GD) with effect from 01 Oct 2013 without effect on pay and allowances.		
Sub	Satish Chandra Mishra	(JC-459243W)	01 Nov 2013
Sub	Ghag Mahendra Gopal	(JC-459174L)	01 Dec 2013
Sub	Sube Singh	(JC-458977L)	01 Dec 2013
Sub	Malavikar Ishwar Ningoji	(JC-459224L)	05 Dec 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub Maj (GD) with effect from 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.		
Sub	Karkamanda Shameeulla	(JC-459187H)	01 Jan 2014
Sub	Yadav Shrawan Shripati	(JC-459084K)	01 Jan 2014
Sub	Nimat Avinash Shankar	(JC-459146Y)	04 Jan 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub Maj (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Sub	Shahajirao Dnyaneshwar Shitole	(JC-459239N)	01 Feb 2014

Sub	Pawar Shivaji Balasaheb	(JC-459246K)	01 Feb 2014
Sub	Bhande Ajaykumar Marutirao	(JC-459449N)	01 Feb 2014
Sub	Adhav Tabaji Narayan	(JC-459322L)	03 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub Maj (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Sub	Jagtap Nandakumar Nivarti, SM	(JC-459730W)	01 Feb 2014
Sub	Rakhade Gopichand Kashinath	(JC-459154X)	01 Mar 2014
Sub	Hafi Jullah	(JC-459228F)	01 Apr 2014
Sub	Nikam Prabhakar Tukaram	(JC-459443M)	01 Apr 2014
Sub	Surve Rajesh Daji	(JC-459399N)	01 May 2014
Sub	Kendre Satish Sakharan	(JC-459412M)	01 May 2014
Sub	Madhusudan Gupta	(JC-459518Y)	02 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub Maj (GD) with effect from 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances.		
Sub	Daware Jayavant Govind	(JC-459471Y)	22 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub Maj (GD) with effect from 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances.		
Sub	Suresh Desai	(JC-459541M)	22 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub Maj (GD) with effect from 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances.		
	TO BE SUB (GD)		
Nb Sub	Venkateppa Bhusaraddi	(JC-459948H)	01 Jun 2013
Nb Sub	Mohite Ramrao Maruti	(JC-460003L)	04 May 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 May 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Patil Sachin Ravasaheb, SM	(JC-460140K)	17 May 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Manohar Parab	(JC-460226H)	01 Apr 2013
Nb Sub	Sontakke Ramakant Bhanudas	(JC-460321P)	01 Mar 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Pratap Singh	(JC-459988K)	01 May 2013
Nb Sub	Chougale Sanjay Pandit	(JC-460116N)	27 May 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Shiekh Bismillah Shiekh Musa	(JC-460166Y)	10 Jun 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Gaikwad Mahadeo Bhagvan	(JC-460301F)	01 Jun 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 May 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Sunil	(JC-460322X)	20 May 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Kuldeep Raj	(JC-460030P)	01 Jul 2013
Nb Sub	Khot Janardhan Mahadev	(JC-460329F)	30 Jul 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 23 Jul 2013 without effect on pay and allowances.		

Nb Sub	Babar Lalasaheb Anandrao	(JC-459998N)	01 Jun 2013
Nb Sub	Metla China Marreyya	(JC-460120W)	01 Jul 2013
Nb Sub	Sabale Prakash Dnyanu	(JC-460133N)	01 Jun 2013
Nb Sub	Deshmukh Sanjay Vasantryao	(JC-460149Y)	01 Jul 2013
Nb Sub	Vasudev Naik	(JC-460255X)	05 Jul 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 03 Oct 2012 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Manu KM	(JC-460260H)	01 Jul 2013
Nb Sub	Ingawale Sadashiv Kisan	(JC-460375W)	01 Jul 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Savirigana Pramakumar	(JC-460124M)	01 Sep 2013
Nb Sub	Shinde Ravikant Gangaram	(JC-460162H)	03 Sep 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Suradakar Vishnu Gulab	(JC-460209H)	01 Aug 2013
Nb Sub	Mukkund Navaliga	(JC-460264Y)	01 Aug 2013
Nb Sub	Patil Laxman Dagadu	(JC-459990F)	01 Sep 2013
Nb Sub	Dhanawade Ramesh Shamrao	(JC-460218K)	01 Sep 2013
Nb Sub	Jadhav Abaso Anandrao	(JC-460241X)	01 Sep 2013
Nb Sub	Lomate Balbhim Pralhad	(JC-460265F)	07 Sep 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Shinde Ganesh Trimbakrao	(JC-460343N)	04 Sep 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Bhande Hanamant Namdev	(JC-460351M)	04 Sep 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Bhapkar Bapu Vitthal	(JC-460352P)	01 Sep 2013
Nb Sub	Patil Yashwant Ramchandra	(JC-460000X)	01 Oct 2013
Nb Sub	Patil Pitambar	(JC-460113A)	01 Sep 2013
Nb Sub	Doiphode Dadarao Dagadu	(JC-460152Y)	01 Sep 2013
Nb Sub	Rawool Santosh Laxman	(JC-460173P)	01 Oct 2013
Nb Sub	Abhange Sanjay Harichandra	(JC-460178N)	06 Sep 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Gaikwad Shatrughna Vitthal	(JC-460215W)	01 Oct 2013
Nb Sub	Tonapi Kallapa Shankar	(JC-460290A)	07 Sep 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Allasab Nadaf	(JC-460219M)	06 Sep 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Salunkhe Yuvaraj Annappa	(JC-460279F)	20 Sep 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.		

Nb Sub	Patil Bharat Trimbak	(JC-459935L)	20 Oct 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Patil Tanaji Ramu	(JC-460068Y)	01 Dec 2013
Nb Sub	Katre Bandu Rajaram	(JC-460126X)	01 Oct 2013
Nb Sub	Ningapa Hundare	(JC-460163L)	02 Dec 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Suresh Desai	(JC-460165W)	21 Nov 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Gaikwad Venket Limbraj	(JC-460176H)	01 Nov 2013
Nb Sub	Jagadale Kumar Dnyandeo	(JC-460187P)	10 Nov 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Nov 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Shirke Milind Keshav	(JC-460231N)	07 Nov 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 17 Aug 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Waingade Balu Vithal	(JC-460235K)	20 Oct 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Oct 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Manohar Mirashi	(JC-460376Y)	15 Nov 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Aug 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Desai Nilesh Vitthalrao	(JC-460383P)	15 Oct 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Oct 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Patil Pandurang Doulu	(JC-460320M)	17 Dec 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Gawade Appaji Shankar	(JC-459746F)	01 Sep 2013
Nb Sub	Adhav Dnyandeo Narayan	(JC-460095H)	01 Sep 2013
Nb Sub	Jatakar Shrikant Ramu	(JC-460100H)	12 Dec 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Nov 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Usman Nuchiyan	(JC-460041F)	27 Dec 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Nov 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Gangurde Dnyaneswar Deoram	(JC-460037Y)	27 Dec 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Nov 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Snajay Kumar Ingale	(JC-460194L)	24 Dec 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Khot Snajay Tukaram	(JC-460210X)	20 Dec 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.		

Nb Sub	Lakshmana CS	(JC-460108P)	27 Dec 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Patil Pandit Keraba	(JC-460164N)	17 Dec 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Kuljit Singh	(JC-460229W)	02 Dec 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Randhir Singh	(JC-460268P)	01 Dec 2013
Nb Sub	Shamlal Sharma	(JC-460177L)	01 Jan 2014
Nb Sub	Timmanna Mirji	(JC-460293N)	01 Jan 2014
Nb Sub	Qureshi Abdul Kadar Mahammadbhai	(JC-460217F)	10 Dec 2013*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Sayaji Patil	(JC-460267M)	24 Jan 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 17 Sep 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Gawali Babasaheb Pandharinath	(JC-460103W)	20 Jan 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Madhukar Patil	(JC-460047H)	01 Jan 2014
Nb Sub	Padale Vishnu Dattoba	(JC-460145H)	01 Jan 2014
Nb Sub	Memane Shahaji Vishnu	(JC-460146L)	01 Jan 2014
Nb Sub	Mane Ananda Krishna	(JC-460204K)	17 Jan 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Bhirkad Narhari Bhujangrao	(JC-460246W)	15 Jan 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Gaikwad Ashok Sahadu	(JC-460195N)	30 Jan 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Singhandhupe Indraprakash Subelal	(JC-460296F)	25 Jan 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Desai Suryakant Vishwas	(JC-460117W)	01 Feb 2014
Nb Sub	Gaikwad Balu Ramchandra	(JC-460214N)	01 Feb 2014
Nb Sub	Nimse Dattatraya Surybhan	(JC-460216Y)	01 Feb 2014
Nb Sub	Bokade Ramesh Govind	(JC-460247Y)	01 Feb 2014
Nb Sub	Chavan Anandrao Shivaram	(JC-460300Y)	01 Feb 2014
Nb Sub	Vilas Chougule	(JC-460135Y)	02 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Bichakule Biru	(JC-460237P)	01 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 14 Dec 2013 without effect on pay and allowances.		

Nb Sub	Gaikwad Yeshwant Gopal	(JC-460238X)	01 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Gavade Subhana Janba	(JC-460212H)	08 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Sunil Nagare	(JC-460221K)	07 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Ghorpade Nawanath Shivaram	(JC-460188X)	28 Jan 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Patil Tanaji Namdev	(JC-460413F)	06 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Rabendra Prasad Patel	(JC-460174X)	17 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	P Vijaya Kumar	(JC-460190P)	15 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Agalave Ganpat Balaram	(JC-460327W)	14 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Darekar Santosh Bhagawant	(JC-413603H)	10 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Shankar Divate	(JC-460401M)	12 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Tambe Bhausahab Shivaji	(JC-460418A)	10 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Bhanderge Kamlakar Eknathrao	(JC-460330W)	01 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 22 Sep 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Yousuf SMD	(JC-460377F)	15 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Rakesh R Kalekar	(JC-460394F)	01 Mar 2014
Nb Sub	Patil Kakasaheb Bhagwan	(JC-460222M)	04 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Dileep Kadam	(JC-460198F)	03 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Mohite Machindra Bajarang	(JC-460233Y)	19 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 25 Sep 2013 without effect on pay and allowances.		

Nb Sub	Syed Rahamtulla	(JC-460378K)	15 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Ramchandra Bhujang Bharanakar	(JC-460170F)	01 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Patil Bharat Vishnu	(JC-460191X)	01 Mar 2014
Nb Sub	Tapase Mahendra Marotrao	(JC-460213L)	26 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Kale Prabhakar Punja	(JC-460234F)	26 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	More Manchindra Bhikan	(JC-460239A)	04 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Somvanshi Youraj Shivram	(JC-460333K)	20 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Mohammed Yousuf	(JC-460388N)	25 Feb 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Chipde Rajendra Ramdas	(JC-460389W)	12 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Dhuri Vijay Mahadeo	(JC-460118Y)	11 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Jagatap Tanaji Yuvaraj	(JC-460144A)	01 Mar 2014
Nb Sub	Gajanan Chavan	(JC-460196W)	05 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Bhosale Dattatray Maruti	(JC-460291H)	01 Mar 2014
Nb Sub	Moneshri Bhiku Patil	(JC-460303M)	10 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Pawar Sanjay Panditrao	(JC-460308L)	18 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Mohandhar Kashyap	(JC-460341H)	01 Mar 2014
Nb Sub	Bankar Ramesh Bhanudas	(JC-460347K)	05 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Mahadeo Janu Patil	(JC-460358W)	01 Mar 2014
Nb Sub	Lagamappa Melmatti	(JC-460316K)	11 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.		

Nb Sub	Sawadatkar Ramesh Sitaram	(JC-460324H)	11 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Wangekar Vijay Shivaji	(JC-460232W)	20 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Oct 2013 without effect on pay and allowances		
Nb Sub	Sudhakar Gunagi	(JC-460119F)	01 Apr 2014
Nb Sub	Paste Sandeep Ramchandra	(JC-460292L)	01 Apr 2014
Nb Sub	Kumbhar Sandip Dasharath	(JC-460554W)	01 Apr 2014
Nb Sub	Panchal Irappa Dhanappa, SM	(JC-460328Y)	24 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Rane Narayan Yesaba	(JC-460208A)	01 Apr 2014
Nb Sub	Patil Sunil Babasaheb	(JC-460203F)	26 Jan 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Swami Mallikarjun Appaya	(JC-460205M)	26 Jan 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Khotele Ghanshyam Shalikram	(JC-460495P)	04 Apr 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Patil Gorakh Dattu	(JC-460302K)	10 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Munna	(JC-460276N)	18 Apr 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Khot Ravindranath Vithoba	(JC-460256A)	01 May 2014
Nb Sub	Tipe Balaso Parasu	(JC-460277W)	09 May 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 May 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Chavan Sunil Shamrao	(JC-460315F)	12 May 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 May 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Nanvare Ajinath Mahadeo	(JC-460361W)	01 May 2014
Nb Sub	Pawar Vijay Chatur	(JC-460443Y)	06 Jun 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Khewale Rajesh Zinger	(JC-460461F)	06 Jun 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Gawas Santosh Fatu	(JC-460359Y)	05 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Nawale Dhananjay Dagadu	(JC-460530M)	05 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		

Nb Sub	Bokam Srinvasarao	(JC-460531P)	05 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Dhekale Balavant Narayan	(JC-460104Y)	01 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Borade Arun Shankar	(JC-460412Y)	18 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Tanaji	(JC-460460Y)	09 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances.		
Nb Sub	Godse Vilas Damodhar	(JC-460438N)	14 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances		

VN RAVEENDRAN
Under Secy

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 260, dated 31st October 2014—The President is pleased to promote the following officers from existing grade wef the date (F/N) as mentioned against each:-

Sl. No	Name (Shri/Smt/Miss/Ms)	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.)	Date of Charge Assumption in the promoted grade
01	VIJENDER SINGH	ADRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	DEEPAK KUMAR, (SC)	ADRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
03	AK SAHGAL	ADRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
04	KAPIL MUNIRAM (ST)	ADRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
05	KAMRUDDIN	ADRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
06	KM SONI	ADRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
07	NAUSHAD AHMED	ADRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	ASR MURTHY	ASL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	B NARSIMHA RAO (ST)	ASL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
03	V VIJAYALAKSHMI	ASL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
04	Y SAMBASIVA RAO	ASL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
05	E MALLESHA	ASL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012

01	MN RAMASUNDARA	CABS	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	KG JYOTHY	CABS	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012

01	D HEMALATHA (SC)	CAIR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	SURESH KUMAR MK	CAIR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
03	M SUMATHI	CAIR	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
04	SUBHADRA RAMESH	CAIR	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
05	SHEELA M (SC)	CAIR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
06	P SHIVA KUMAR	CAIR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013

01	SANJIV KUMAR	CCE(C)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	AK SINGH	CCE(C)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
03	RK PULIYANI	CCE(C)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
04	DAYA SHANKAR SINGH	CCE(C)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
05	VINAY KUMAR ALVELA	CCE(C)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	RK SHARMA	CCE(E)	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	BIKASH KUMAR PANDA	CCE(E)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	BHIM RAJ SINGH NEGI	CCE(N)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	SARWENDU KUMAR RAI	CCE(N)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
03	JASBIR SINGH RANA	CCE(N)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
04	DHARMENDRA SHARMA	CCE(N)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
05	KRISHANPAL SINGH	CCE(N)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
06	MANISH KUMAR	CCE(N)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
07	IP SINGH	CCE(N)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
08	VIJAY KUMAR SINGH	CCE(N)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	PV RAMANAYYA	CCE(S)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
02	MOHD SANAULLAH KHAN	CCE(S)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
03	MOHD MUSHTAQ AHMED	CCE(S)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
04	S SOUNDARA PANDIAN	CCE(S)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
05	P VENKATESH	CCE(S)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
06	P VIVEKANAND	CCE(S)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
07	KA SREEKANTH (SC)	CCE(S)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
08	B SRINIVAS REDDY	CCE(S)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	K ASHOK KUMAR	CCE(W)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	P SRINIVAS RAO	CCE(W)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
03	YOGENDRA SINGH VERMA	CCE(W)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
04	A SIVASUBRAMANIAN	CCE(W)	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	HP RAMESHA	CEMILAC	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	TRIPTY RANI BOSE	CEMILAC	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	VIVEK GARG	CEPTAM	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
----	------------	--------	------	------	-------------------------------------	------------

01	VIVEK KUMAR	CFEES	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	AS RAWAT	CFEES	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
03	RAJESH KUMAR (SC)	CFEES	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
04	NEELAM SAXENA	CFEES	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
05	SHIO KUMAR (SC)	CFEES	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
06	AK SHAKYAWAR (SC)	CFEES	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
07	NAVIN KUMAR SAXENA	CFEES	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	M RAMADEVI	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	GM GANESAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
03	DAVID RAMACHANDRAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
04	MANDEM SOMESWARAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
05	D MANOHARAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
06	NV RAMAMURTHY	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
07	E RAJAVEL	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
08	S GIRIDHARAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
09	K PERUMAL	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
10	S MURUGESAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
11	R BALASUBRAMANIAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
12	R PALANI	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
13	S MOHAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
14	P PANNEERSELVAM	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
15	G THIRUNAVUKKARASU	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
16	K CHANDRAN (SC)	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
17	T PRAKASKUMAR	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
18	CM THULASI DASS	CVRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
19	K RAMESH	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
20	KV MUKUNDAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
21	P RAJENDRAN (SC)	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
22	V SEKAR	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
23	AR NAGARAJAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
24	G MEENAKSHINATHAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
25	SAROJA NAGARAJAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
26	M VENKATARAMAN (SC)	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
27	J SAM DAVIDSON	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
28	S SUBRAMANIAM (SC)	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012

29	A RAVICHANDRAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
30	P RAJMOHAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
31	BSM SIMHADRI	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
32	N RAVIKUMAR	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
33	M GNANASEHARAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
34	R DHAKSHNAMURTHY	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
35	S THOMAS	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
36	D THANIKAVEL	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
37	PP EASWARAN (SC)	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
38	K RAGHAVAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
39	S RAJU	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
40	JE CYRIL	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
41	M MUTHUKRISHANAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
42	G ISAIVANAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
43	B PANDURANGAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
44	K KESAVAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
45	VIJAY KUMAR K	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
46	PA LEO KENNEDY	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
47	B RAMESH BABU	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	VM VISHWANATH	DARE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
----	---------------	------	------	------	-------------------------------------	------------

01	ABDUL WAJID KHAN	DEBEL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
----	------------------	-------	------	------	-------------------------------------	------------

01	GEETA SHARMA	DESIDOC	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
02	DINESH K AGGARWAL	DESIDOC	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
03	RAKESH KUMAR (SC)	DESIDOC	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	S PANDIT SRIHARI (ST)	DFRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	MAHADEVANAIIKA (ST)	DFRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
03	N ASHOK	DFRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
04	S PADMINI	DFRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
05	PADMASHREE A	DFRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
06	C MAHESH	DFRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	NALINI JOSHI	DIBER	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	SHER SINGH (ST)	DIBER	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
03	UC JOSHI	DIBER	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
04	MEENA SHARMA	DIBER	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	AWATAR SINGH	DIPAS	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	AMITABH	DIPAS	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
03	RAJESH KUMAR (SC)	DIPAS	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	U MAHESHWARAN	DIPR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
02	SUKRA RAM BORO (ST)	DIPR	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
03	RK YADAV (SC)	DIPR	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	JS HOODA	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	MANGI LAL (SC)	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
03	MADHU SUDAN	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
04	VV KACHHAWHA	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
05	SHYAM RANKAWAT	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
06	ML RAMANI (SC)	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
07	SANTOSH KUMAR	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
08	SHREE LAL BISHNOI	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
09	PRAMOD KUMAR SHARMA	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
10	SK YADAV	DLJ	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	RAJEEV KUMAR	EMU Delhi	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	S GANAPATHI RAMAN	EMU Delhi	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012

01	N MANJUNATHA (ST)	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
02	SESHADRI VS (XSM)	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
03	T VISHNUVARDHAN (ST)	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
04	Y SHANKARANANDA	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
05	P KANNAN	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
06	MP JAYAPRAKASAN	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
07	S JAYATHEERTHA	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
08	PV JAYAPRAKASH	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
09	JOYCHAN THOMAS	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
10	R RAJAPPA (ST)	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
11	T SARAVANA DOSS (SC)	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
12	BT KODANDARAMU	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
13	MH SHIVANANDAIAH	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
14	R SURENDRA (SC)	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
15	RAVI KUMAR	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
16	M ARISTATAL (SC)	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
17	RAJASHEKAR	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
18	S ANWAR BASHA	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
19	MUNE GOWDA	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
20	VL SEBASTIAN	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
21	RAMESH CHANDRA	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
22	M VISHWANATH	GTRE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
23	TV JOSE	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
24	N MADHU	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
25	VR MURALIDHARAN NAIR	GTRE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013

01	DP SRIVASTAVA	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
02	RN PATKAR	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
03	VN CHETULE	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
04	AW GAIKWAD (SC)	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2011
05	NG WAGHMARE	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
06	RK KASHYAP	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
07	SB MUDHOLKAR	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	05.09.2011
08	ND LANGHE	HEMRL	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2011
09	PG ADSUL	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
10	SABERA S AHMED SHAIKH	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
11	DM GUNE	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
12	P MENON	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
13	SN PATEL	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
14	JR TAVARE	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
15	MV MODGI	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
16	DEEPAK PRATAP PATIL	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
17	M SIDDIQUE SHAIKH	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
18	RM KALE	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	06.09.2013
19	MB MUPPID (ST)	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
20	RM LAGADE (SC)	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
21	AS KSHIRSAGAR	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
22	DR DHENDE (SC)	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	02.09.2013
23	SE BHUSARE	HEMRL	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	05.09.2013

01	C SHARADA	ANURAG	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
02	T NARESH SINGH	ANURAG	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012

01	Ms RITU A CHOPRA	HQ-DAERO	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
----	------------------	----------	------	------	-------------------------------------	------------

02	Shri P MALLESHA	HQ-DCV&E	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	03.09.2012
03	Smt HARSH MANI	HQ-SA COAS	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
04	Smt RAKHI KASHKARI	HQ-DCW&E	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
05	Shri ANAND PRAKASH, SC	HQ-DLS	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

01	HARISH SINGH RAWAT (ST)	INMAS	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2011
02	CHAMAN LAL (SC)	INMAS	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
03	VK NAGPAL	INMAS	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
04	MITA DATTA	INMAS	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2012
05	NATHU SINGH (SC)	INMAS	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013
06	AVDESH KUMAR (ST)	INMAS	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2013

NARESH VIRDI
Asstt Director (Pers-TC)

ARMY BRANCH

No. 261, dated 31st October 2014—The President is pleased to permit the under mentioned officer to retain his rank and wearing of uniform after resignation of his commission :-

TERRITORIAL ARMY

RESIGNATION

Capt Ashish Devgon

TA-42335

(Infantry)

18 Aug 2013

B B JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 262, dated 3rd November 2014—The President is pleased to permit the under mentioned officers to retire with permission to retain their rank and wearing of uniform :-

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Lt Col Koushik Saha	TA(M)-1161	AMC(TA)	31 Jan 2014 (AN)
Lt Col DM Dafedar	TA-42263	(Infantry)	30 Apr 2014

B B JOSHI
Under Secy

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in